

बारिश व ठंड की आगोश में दिल्ली-एनसीआर व यूपी



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है। उधर, हरियाणा के गुरुग्राम में सुबह तेज बारिश हुई है। बारिश होने से एनसीआर में और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। दिल्ली में रात ढाई बजे से सुबह साढ़े आठ बजे के बीच 9.1 मिलीमीटर वर्षा हुई। पालम में सबसे अधिक 11.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में दो दिन पहले भी बूंदाबांदी हुई थी। वहीं, मौसम विभाग ने तीन दिन का कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। बताया गया कि बूंदाबांदी के बीच हल्का कोहरा भी छाया रहा। इससे दृश्यता कुछ कम है। बूंदाबांदी से फसलों को फायदा ही फायदा होगा। मौसम विभाग ने भी दो दिन बूंदाबांदी, वर्षा और कोहरा छाप रहे की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने तीन दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दो दिन शुक्रवार व शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आकाश में बादल छाप रह सकते हैं (शेष पृष्ठ-3 पर)

सदा के लिए मौन हो गये मनमोहन!

कल राजघाट के पास होगा अंतिम संस्कार, राजकीय शोक घोषित



नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हालांकि मनमोहन सिंह अब नहीं रहे, लेकिन वह अभी भी जीवित हैं। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मनमोहन सिंह प्रखर अर्थशास्त्री थे। 1991 में देश में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के वे शिल्पकार रहे। 2004 से 2014 तक वे प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन से देशभर में शोक की लहर है।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हालांकि मनमोहन सिंह अब नहीं रहे, लेकिन वह अभी भी जीवित हैं। राष्ट्र के लिए उनके योगदान को बदला नहीं जा सकता। बंगलुरु विश्वविद्यालय में, हम सभी छात्रों के लिए एक शोध उदारीकरण के वे शिल्पकार रहे। 2004 से 2014 तक वे प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन से देशभर में शोक की लहर है।

प्रेरणस्रोत रहा है मनमोहन सिंह का जीवन : मोदी

पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए अपने शोक संदेश में कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत रहा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग-अलग स्तर पर भारत सरकार में सेवाएं दीं। उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवाएं दीं। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे और देश में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो समर्पण था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉ. मनमोहन सिंह का जीवन ईमानदारी, सादगी का प्रतीक था। उनकी सौम्यता, बौद्धिकता उनके जीवन की पहचान रही।

ट्रक चालक की संदिग्ध मौत

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गोल चक्र पर ट्रक में चालक का शव पड़ा मिला। चालक ने मौत से पूर्व अपने साथी कर्मियों को फोन कर सीने में दर्द होने की शिकायत बताई थी। आशंका जताई जा रही है कि हाट अटैक होने की वजह से चालक की मौत हुई है।

मूल रूप से हरदोई निवासी अमरेश कुमार ट्रक चालक था। गुरुवार को वह नोएडा से ट्रक में सामान लेकर ग्रेटर नोएडा आ रहा था। अमरेश ने अपनी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को फोन कर बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके सीने में दर्द हो रहा है। कर्मचारी जब उसे तलाशते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंचे तो ट्रक सिरसा गोल



हिंडन किनारे मिला 5 माह के बच्चे का भ्रूण

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। थाना ईकोटेक तीन क्षेत्र के हिंडन नदी के किनारे पर एक पांच माह का मानव भ्रूण पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि किसी कुंवारी मां ने लोक लाज के भय से गर्भपात के बाद भ्रूण को हिंडन किनारे फेंक दिया। पुलिस को किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि हिंडन नदी किनारे एक भ्रूण पड़ा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना ईकोटेक 3 पुलिस ने भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस का कहना है कि इस बात की जांच की जा रही है कि हिंडन नदी किनारे यह भ्रूण किसने फेंका था। वहीं आशंका जताई जा रही है कि संभवतः किसी कुंवारी मां ने लोक लाज के भय से भ्रूण को फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।



फर्जीवाड़ा कर बेटी के आधार कार्ड में जन्मतिथि बदल कर बालिग दर्शाया

अपहरण व अन्य मामले में 9 के खिलाफ मुकदमा

नोएडा (चेतना मंच)। किशोरी के आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में फेरबदल करवाने तथा उसका अपहरण करने के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ थाना फेस 2 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने दो बार उसकी पुत्री का अपहरण भी किया।

ग्राम इलाहाबास में किराए पर रहने वाले प्रेम (काल्पनिक नाम) ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसने 13 दिसंबर वर्ष 2023 में थाना फेज दो में अपनी नाबालिग



कुमार, अनिल, लालू, गौरव, उत्तम, सोमा, पंकज, राजेश व शिवपाल आदि ने उसकी बेटी के आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि में संशोधन करा कर वर्ष 2007 के स्थान पर जन्मतिथि वर्ष 2003 कर दी थी। इसके बाद उसने न्यायालय में अपनी बेटी का दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र जमा कराया। दसवीं के प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि 29 जुलाई 2007 अंकित है। उसे आधार कार्ड से पता चला कि उसकी बेटी के आधार कार्ड में कूट रचित दस्तावेजों (शेष पृष्ठ-3 पर)

जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने दी जान

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। थाना बादलपुर क्षेत्र के ग्राम कुड़ीखेड़ा में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्राम कुड़ीखेड़ा निवासी हरेंद्र सिंह ने बुधवार को अपने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के दौरान पता चला कि हरेंद्र सिंह ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। उपचार के दौरान बीती रात्रि हरेंद्र सिंह की मौत हो गई। अस्पताल से सूचना मिलने पर थाना बादलपुर पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हरेंद्र सिंह किसी कंपनी में नौकरी करता था। हाल ही में उसकी नौकरी छूट गई थी। वह पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में भी चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि डिप्रेशन की वजह से ही उसने जहरीला पदार्थ खाया था।

गाड़ी खड़ी करने के विवाद में मैराथन खिलाड़ी के साथ मारपीट

नोएडा (चेतना मंच)। गाड़ी खड़ी करने के विवाद में इंटरनेशनल मैराथन खिलाड़ी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट के बाद युवक जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाना फेज वन में मुकदमा दर्ज कराया है। मूल रूप से कन्नौज निवासी विपिन कुमार ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह इंटरनेशनल मैराथन खिलाड़ी रहा है। 25 दिसंबर को वह नोएडा के सेक्टर 10 डी ब्लॉक के पास अपनी गाड़ी साइड में लगा रहा था। इस दौरान उसके पीछे खड़ी कार में बैठे युवक लगातार हॉर्न बजा रहे थे। हॉर्न को अनुसुनाकर वह अपनी गाड़ी पार्क करने लगा। इस दौरान पीछे वाली गाड़ी से तीन-चार युवक उतरकर आए और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। उसने जब गाली गलौज का विरोध किया तो युवकों ने उसे कार से नीचे उतार लिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में उसे काफी चोटें आई हैं। (शेष पृष्ठ-4 पर)



छात्र के साथ मारपीट कर विभिन्न खातों से एक लाख रकम ट्रांसफर कराई

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में बीटेक के छात्र से कुछ युवकों ने मारपीट कर एक लाख रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। ग्राइंडर डेंटिंग एप के जरिए एक युवक ने छात्र को मिलने के लिए बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने थाना नॉलेज पार्क में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मूल रूप से बनारस के रहने वाले विनोद (काल्पनिक नाम) ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। 7 दिसंबर को ग्राइंडर डेंटिंग एप के जरिए एक युवक से उसकी बात हुई। इसके बाद वह उसे कॉलेज लेने आ गया। (शेष पृष्ठ-4 पर)

मारपीट का वीडियो वायरल होने पर हॉस्टल संचालक पर एफआईआर दर्ज

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। हॉस्टल संचालक द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल होने पर थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो में हॉस्टल संचालक एक व्यक्ति पर डंडे बरसाता हुआ दिख रहा है। बीते दिनों ट्विटर हेंडल एक्स पर एक दंगल द्वारा युवक की पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र का बताया जा रहा था। वायरल वीडियो को पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अप्रत्याशित हॉस्टल के संचालक गौरव गिरी ने डंडे से एक व्यक्ति की पिटाई की। इस दौरान किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। जांच के बाद उप निरीक्षक राहुल यादव को शिकायत पर पुलिस ने हॉस्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

मकान से लैपटॉप, नकदी व दस्तावेज चोरी

नोएडा (चेतना मंच)। थाना फेस 1 क्षेत्र के सेक्टर 15 के एक मकान से चोरी ने बैग चोरी कर लिया। बैग में लैपटॉप, नगदी, चार्जर पर्स व अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सेक्टर 15 के ए ब्लॉक में रहने वाले विनय पारीक ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 1 दिसंबर को सुबह अज्ञात चोरों ने उसके कमरे की अलमारी में रखा बैग चोरी कर लिया। बैग में लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर, पर्स, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा ढाई हजार रुपए रखे हुए थे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

संचालक द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल होने पर थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो में हॉस्टल संचालक एक व्यक्ति पर डंडे बरसाता हुआ दिख रहा है। बीते दिनों ट्विटर हेंडल एक्स पर एक दंगल द्वारा युवक की पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र का बताया जा रहा था। वायरल वीडियो को पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अप्रत्याशित हॉस्टल के संचालक गौरव गिरी ने डंडे से एक व्यक्ति की पिटाई की। इस दौरान किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। जांच के बाद उप निरीक्षक राहुल यादव को शिकायत पर पुलिस ने हॉस्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपियों पर मुकदमा

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। घर में घुसकर मारपीट व जानलेवा हमला करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ थाना जारका में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा न्यायालय के निर्देश पर दर्ज किया गया है। ग्राम बिसाहड़ा निवासी दुष्यंत सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 10 जुलाई को वह अपने भाई हेमंत सिंह के साथ घर में बैठा हुआ था। इस दौरान गांव के ही दीपक, शांतनु, हर्ष व ललित एक राय होकर जबरन उसके घर में घुस आए। चारों आरोपियों के हाथों में लाठी, डंडे व तमंचा था। घर में घुसते ही इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। उसने जब गाली देने का विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर कर दिया लेकिन वह भाग कर घर के भीतर जा चुका। आरोपियों द्वारा चलाई गई गोली एक



अन्य व्यक्ति को लगी और वह घायल होकर गिर गया। इसके बाद चारों आरोपियों ने उसके मकान में जमकर तोड़फोड़ की। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद चारों आरोपी भविष्य में अंजाम भुगतने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक उसने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने न्यायालय में याचिका दायर कर (शेष पृष्ठ-4 पर)

डॉ मनमोहन के निधन पर नोएडा के नेताओं ने जताया दुःख

अतीत की यादों को तरोजा कर हुए भावुक



नोएडा (चेतना मंच)। देश के पूर्व प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर नोएडा के कांग्रेस नेताओं को काफी दुःख हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की पुरानी यादें तरोजा कर कई नेता काफी भावुक हो गए। नोएडा महानगर के पूर्व अध्यक्ष शहाबुद्दीन ने बताया कि वह कई नेताओं के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिले थे तथा उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया था। इस दौरान उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया तथा कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए और भी मेहनत करने की निर्देश दिए थे। कांग्रेस के (शेष पृष्ठ-4 पर)

अब चिल्ला एलीवेटिड के विकास को लगेंगे पंख!

फरवरी माह से शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य, ठेकेदार कंपनी को कार्य एवार्ड

नोएडा (चेतना मंच)। दशकों के लंबे इंतजार के बाद अब चिल्ला एलीवेटिड का काम फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। निर्माण करने वाली कंपनी उग्र ब्रिज कांफोरेशन लिमिटेड ने 17 दिसंबर को ठेकेदार कंपनी एमजी कंस्ट्रक्शन को कार्य एवार्ड किया। जनवरी में कार्य बल और डिजाइन विवरण को अंतिम रूप देने के साथ काम शुरू किया जाएगा। 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ के शिलान्यास के बाद 79 करोड़ का काम हुआ था। इसे बीच में रोक दिया गया था। इससे एलिवेटिड से रोजाना करीब 5 लाख वाहन चालक को फायदा होगा।



ठेकेदार के पास निर्माण पूरा करने के लिए तीन साल का समय होगा। दिल्ली और नोएडा के बीच यातायात भीड़ को कम करने के लिए 2012 में योजना की फिजिबिलिटी तैयार की गई थी। एलिवेटिड 5.9 किमी लंबी बननी है। योजना के प्रारंभिक फेज में इसकी कुल लागत 605 करोड़ रुपए थी।

2018 में दिल्ली सरकार से मंजूरी मिली। जनवरी 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी आधारशिला रखी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से लागत 605 करोड़ रुपए में देरी, गेल गैस पाइपलाइन के पुनः मार्ग और डिजाइन में बदलाव के कारण काम रोक दिया गया। कोविड-19 महामारी ने देरी को और बढ़ा दिया, जिससे परियोजना मार्च 2020 में रुक गई। अब तक केवल 13वें निर्माण कार्य पूरा हुआ है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा 79 करोड़ खर्च किए। अक्टूबर 2023 में ब्रिज कांफोरेशन ने बढ़ती सामग्री लागत और टेंडर कास्ट का हलवा देते हुए संशोधित बजट 940 करोड़ का पेश किया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। लेकिन नोएडा प्राधिकरण और राज्य सरकार को टेंडर को अंतिम रूप देने से पहले कई बार पुनः अनुमोदन की आवश्यकता थी। जिसके बाद बजट में संशोधन किया गया और अब ये एलिवेटिड कुल 892 करोड़ 75 लाख 34 हजार रुपए में (शेष पृष्ठ-4 पर)

एकता के सूत्र

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अमरावती में दिए वक्तव्य में धर्म के नाम पर पैदा की जा रही गलतफहमियां दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राममंदिर बनना तो ठीक है लेकिन इस तरह के नये-नये मंदिर विवाद खड़ा करना देश की सामाजिक समरसता के लिये ठीक नहीं है। उन्होंने स्वीकारा कि विविधता हमारा वर्तमान तो है लेकिन ये हमारे अतीत का हिस्सा भी रहा है। देश में विभिन्न धर्म-संस्कृति के लोग आते रहे हैं। प्रारंभिक मतभेद और कटुता को दूर करके भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनते रहे हैं। जिससे विविधता के बीच एकता के सूत्र विकसित होते रहे हैं। यही वजह है कि बाद में कानून के जरिये तय हुआ कि आजादी के वक्त पूजा स्थल का जैसा स्वरूप रहा, उसे यथास्थिति में बनाये रखा जाये। निश्चित रूप से ऐसे विवादों को हवा देने से सामाजिक समरसता पर आंच आएगी व देश का विकास बाधित होगा। इसके बाद जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य व कतिपय अन्य धर्मगुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बयान को भागवत की निजी राय बताया। निश्चित रूप से भागवत का बयान समय की आवाज है और बकौल भागवत धर्म की सतही समझ से सांप्रदायिक कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। लेकिन यह बात विचारणीय है कि भागवत के बयान के विरोध में तो आवाजें उठी, लेकिन संघ प्रमुख के बयान के समर्थन में संघ के आनुवंशिक संगठनों व भाजपा नेताओं की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। जबकि प्रधानमंत्री व गृहमंत्री अमित शाह के ऐसे बयानों के समर्थन में पार्टी नेताओं में बयानबाजी की होड़ पैदा हो जाती है। समय की मांग है कि संघ प्रमुख के बयान में निहित संदेश को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि संघ की स्थापना के मूल में हिंदुत्व की विचारधारा रही है। यही इस संगठन का आधार भी रहा है। ऐसे में जब संगठन की तरफ से प्रगतिशील विचार सामने आता है तो उसे सुना जाना चाहिए। उसका स्वागत किया जाना चाहिए। निस्संदेह, धर्म एक जटिल मुद्दा है और इसके वास्तविक स्वरूप को समझने जाने में चूक होने की आशंका बनी रहती है। जिसके चलते सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलने की आशंका बलवती होती है। वहीं सवाल उठता है कि क्या भागवत के बयान वाला दृष्टिकोण संगठन में उदारवादी व सख्त नीति के बीच विभाजित हो रहा है? यही वजह है कि संघ व भाजपा नेताओं की तरफ से इस बयान को सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस बयान को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां कट्टरपंथियों के वर्चस्व के रूप में देखा जा सकता है। भागवत की चिंताओं को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरता के चलते संप्रदाय को अतिवाद के पोषक के रूप में देखा जाता रहा है। जिसके चलते इसकी छवि धूमिल हुई है। ऐसे ही यदि बहुसांस्कृतिक देश में कट्टरवाद को प्रथम दिया जाता है तो वैश्विक संदर्भ में देश की छवि पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। धर्म विशेष के नाम पर दुनिया में आतंकवाद को जो मुहिम चली है, उससे धर्म को हिंसा के पर्याय के रूप में देखा जाने लगा है। जिसको लेकर धारणा बनी है कि इससे धर्म की गलत व्याख्या की जा रही है। निश्चित रूप से ऐसे ध्व्वीकरण के प्रयासों से देश में विकास का एजेंडा हाशिये पर चला जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश के उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए जहां नित नये विवादों को तुल्य देने के कारण सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि देखी गई। उदाहरण के तौर पर संभल में हुई घटना को देखा जा सकता है, जहां हिंसा में चार लोगों की जान चली गई थी। ऐसे कृत्यों से भारत के विश्वगुरु बनने के दावे तथा वसुधैव कुटुम्बकम की सनातन परंपरा पर आंच आती है। जिसके लिए जरूरी है कि हमें अपनी बात को ऊंचा रखकर दूसरे विचार की अनदेखी की जगह से बचना होगा। हम अपनी आस्था का ख्याल तो रखें लेकिन साथ ही दूसरे पक्ष के विचार का भी सम्मान करें। ऐसे में देश के कर्णधारों को चाहिए कि वे सत्ता पर काबिज रहने के लिये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति से बचें।

रामचरित मानस

कल के अंक में आपने पढ़ा था कि और अत्यन्त स्नेह से गोद में बैठकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा- जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया?। उससे आगे का वर्णन क्रमानुसार प्रस्तुत है।

कस कीन्ह बर बौराह बिधि जेहिं तुम्हहि सुंदरता दई।
जो फलु चहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बबूरहिं लागई।
तुम्ह सहित गिरि तें गिरौं पावक जरीं जलनिधि महुं परौं।
घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हौं करौं।

जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्पवृक्ष में लगना चाहिए, वह जबर्दस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी।

दो0-भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि।
करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि॥

हिमाचल की स्त्री (मैना) को दुःखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं-।

नारद कर में काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा॥
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। बोरि बरहि लागि तपु कीन्हा॥

मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया।

(क्रमशः...)

एआई व चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति की जगी उम्मीद

गूगल के अनुसार विलो चिप द्वारा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए आयाम प्राप्त करने में सफलता मिलेगी, विशेष रूप से नई टेक्नोलॉजी से हेल्थकेयर, एनर्जी और अन्य सेक्टर में रिसर्च को बेहतर कर, आम आदमी के लिए नए रास्ते खोलेगा।

छले दिनों गूगल ने अपनी एक क्रांतिकारी क्रांति चिप 'विलो' को दुनिया के सामने पेश किया। विलो क्लासिकल क्रांति चिप की तुलना में जटिल गणितीय समस्याओं को तेजी से हल करता है। दावा है कि यह उन समस्याओं को 5 मिनट में हल कर देती है, जिन्हें करने में पारंपरिक क्रांति चिप को अरबों साल लगते। कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में कंपनी की क्रांति लैब में यह चिप विकसित की गई है।

विलो चिप में 105 क्यूबिट हैं। क्यूबिट्स पारंपरिक बिट्स की तुलना में स्वाभाविक रूप से तेज होते हैं। गूगल के अनुसार विलो के क्यूबिट को सावधानीपूर्वक क्रांति चिप है। यह क्यूबिट की संख्या बढ़ने पर त्रुटि दर को कम करने में सक्षम था।

गूगल का लक्ष्य वर्तमान प्रणालियों से कहीं अधिक गति प्राप्त करके क्रांति चिप में क्रांति लाना है। गूगल ने एक ब्लॉगपोस्ट में लिखा, 'विलो ने पांच मिनट से भी कम समय में एक मानक बेंचमार्क गणना की। इसे करने में आज के सबसे

तेज सुपरकंप्यूटरों में से एक को 10 सेप्टिलियन वर्ष लगेंगे। इतने साल तो ब्रह्मांड की आयु भी नहीं है।'

फिलहाल गूगल की चिप द्वारा हल की गई समस्या का कोई तत्काल व्यावसायिक अनुप्रयोग नहीं है। हालांकि, कंपनी क्रांति क्यूबिटों को चिकित्सा, बैटरी तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार कर रही है, जो काम आज के क्यूबिट नहीं कर सकते हैं। क्रांति चिप एक विशेष प्रकार की क्यूबिट चिप है जिसे क्रांति यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो परमाणुओं जैसे छोटे कणों का विज्ञान है।

क्रांति क्यूबिटिंग गणना करने की ऐसी तकनीक है, जो परंपरागत क्यूबिट से काफी अलग है। आज हम जो क्यूबिट देखते हैं, वह बाइनरी गणना का इस्तेमाल करते हैं, यह 'बिट्स' पर काम करते हैं, जो या तो 1 या 0 हो सकते हैं। मतलब जो भी जानकारी हमारे सामने होती है, वह दरअसल 1 या 0 के रूप में होती है, और क्यूबिट उसे लॉजिक का इस्तेमाल करके उस जानकारी को मानव द्वारा पढ़ने और समझने लायक बनाता है। अगर हम क्रांति क्यूबिट की बात करें तो वह क्यूबिट्स पर काम करता है। यह क्यूबिट्स एक साथ 1 और 0 दोनों पर काम कर सकता है। एक क्यूबिट दो अवस्थाओं के रैखिक संयोजन को प्राप्त करने के लिए सुपरपोजिशन की क्रांति मैकेनिकल घटना का उपयोग करता है, और जानकारी को बेहद कम समय में प्रोसेस कर देता है।

विलो चिप की सफलता में एडवांस क्रांति एरर करेक्शन की बड़ी भूमिका है। बहुत अधिक गलती होना लंबे समय से क्रांति क्यूबिटिंग की बड़ी बाधा रही है। क्रांति इंफॉर्मेशन की मूल इकाइयाँ क्यूबिट्स अपने वातावरण के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं। इसके चलते इसके केलकुलेशन में गलती होने की संभावना रहती है। इस कमी के चलते क्रांति सिस्टम के विस्तार

होने पर इसकी गणनाओं को ठीक रख पाना मुश्किल हो जाता है। क्रांति एरर करेक्शन से यह कमी दूर की गई है। इस सुधार का विलो को लाभ मिला है।

हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट में गूगल ने बताया है कि कैसे विलो का क्रांति एरर करेक्शन चिप को कम गलती के साथ बड़ी गणनाएं करने की अनुमति देता है। पिछले चार

से बढ़कर एनकोडेड क्यूबिट के 747 ग्रिड तक पहुंच गई। अब गूगल का लक्ष्य अगले साल तक क्रांति क्यूबिटिंग के लिए वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामले पेश करना है। एआई के लिए जिस तरह की क्षमता वाले क्यूबिटों की जरूरत होती है, वैसे क्रांति बाजार में बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं हैं। अभी तक एआई का पूरा बाजार अमेरिकी कंपनी एनविडिया के ग्राफिक विशेषज्ञों



दशक से क्रांति क्यूबिट बनाने की कोशिशें चल रही हैं, पर दिक्कत यह आती है कि ऐसे क्यूबिट तेजी के चक्कर में गलतियां भी करते हैं। काफी समय से वैज्ञानिक इस समस्या से मुक्ति का रास्ता ढूंढ़ रहे हैं। बात 1995 की है, जब एक अमेरिकी वैज्ञानिक पीटर शोर ने यह अवधारणा दी थी कि क्रांति क्यूबिट तभी कामयाब हो सकता है, जब इसमें खुद ही गलतियों को सुधारने का कोई तरीका शामिल कर दिया जाए। अल्फाबेट का कहना है कि उसने अपने विलो चिप में गलतियां सुधारने की क्षमता शामिल करने में सफलता हासिल कर ली है। यह चिप गणना भी करेगा और साथ ही साथ गलतियों पर भी नजर रखेगा। उन्हें सुधारता हुआ चलेगा।

गूगल की टीम ने दिखाया है कि क्यूबिट की संख्या बढ़ने पर गलती कम हुई है। यह 3म3 ग्रिड

के हवाले है। माना जाता है कि इनके जरिये विलो चिप बड़ी उम्मीद बनकर आया है। उम्मीद है, इससे एआई का तेजी से विकास होगा और इसके उपयोग की परीक्षा जैसी अनेक कल्पनाएं जमीन पर उतरती दिखाई देंगी।

गूगल के अनुसार विलो चिप द्वारा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए आयाम प्राप्त करने में सफलता मिलेगी, विशेष रूप से नई टेक्नोलॉजी से हेल्थकेयर, एनर्जी और अन्य सेक्टर में रिसर्च को बेहतर कर, आम आदमी के लिए नए रास्ते खोलेगा। कुल मिलाकर विलो चिप क्यूबिटिंग क्षेत्र में एक विशाल छलांग मानी जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि यह क्यूबिटिंग के भविष्य और उसके इस्तेमाल को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।

लेखक-डॉ. शशांक द्विवेदी

फिसलती सड़क पर दावे

जी हुजूर, हमें स्वीकार है कि यह मुहावरा पुराना है। इसे आप बाबा आदम के जमाने का भी कह सकते हैं। इक्कीसवीं सदी के पहले बीस साल गुजरने को आए, पर्यटक धरती के रमणीक स्थलों से उठ कर व्योम में सैर के लिए व्याकुल हो उठे हैं। इनके अग्रदूत के रूप में एक हंसता-बोलता नारी रूप रोबोट भी व्योम में जाने की तैयारी में है। अंतरिक्ष ही नहीं, धरती से परे दूसरे ग्रहों में भी सामर्थ्यवान अपनी बस्तियां बसाने की तैयारी में हैं, इसके लिए आरक्षण करवाए जा रहे हैं। अग्रिम भुगतान की तैयारी हो रही है। लेकिन किसी पिछलगू की तरह हम अभी भी किसी नए फैशनबल, परंतु व्याकरण और अर्थ की दृष्टि से गलत भाषा का सृजन करने के स्थान पर अपनी अभिव्यक्ति में प्राचीन कर्मी भाषा के तकिये ढूढ़ रहे हैं? जाहिर तौर पर आपको यह हमारी लेखन क्षमता का अभाव या नए सच को स्वीकार न कर पाने की असमर्थता कह सकते हैं। लेकिन जब युग के बाद युग बदलते जाएं और देश प्रगति और विकास के बड़े-बड़े दावे करने के बावजूद अपने आप को पीछे की ओर फिसलता पाए, सपने आकाश में उड़ने के हों और पांव पाताल की ओर रपटते नजर आए, तो इसे अपने भाषणों और दावों में एक तरक्कीपसंद स्वप्न संसार रचने वाले लोगों को आप क्या उपालम्भ देंगे, 'नाम बड़े और दर्शन छोटे।' जी नहीं, इस देश की तरक्की की चाल के बारे में एक और बात भी कही गई है, 'दो कदम आगे और दो कदम पीछे।' महानुभाव, नतीजा देश की आम जनता के लिए क्या निकला कि महापुरुषों ने अपनी बस्तियां ग्रहों में बसाने की सोच ली और हमारा बसेरा पहले भी फुटपाथ था, आज भी फुटपाथ है। हां, इस बीच ये कुछ और टूट-फूट गए, तो इसे आने वाले इस युग की तैयारी कह लीजिए कि जिसमें फुटपाथ इतने बड़े बन जाएंगे कि जिस पर सीधे हेलीकाप्टर उतर जाएं। ये फुटपाथ तो नए बन जाएंगे, लेकिन फटेहाल आदमी अपना गूदड़ उठा कर सोचता है, अब इन फुटपाथों पर हेलीकाप्टर उतरेंगे तो हम सोचेंगे कहा? खैर, साहिब चिंता कैसी? जहां नाम बड़े होंगे, वहां तो दर्शन छोटे ही रहेंगे। कहा तो सपना था आम आदमी के लिए हेलीकाप्टर वाहन बनाने का। जी नहीं, आजादी की पौन सदी बीत चली, हेलीकाप्टर तो



कठिन नहीं। जब से देश में स्वच्छ भारत की आवाज ऊंचे स्वर में होने लगी है, देश और भी अस्वच्छ हो गया है। सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। सफाई का मशीनीकरण हो रहा है। ससाह में रोज कूड़ा फेंकने वालों की ट्रायलियां इन सड़कों के किनारों पर कृपा करती रहती हैं। कूड़ा फेंकना बाकायदा एक व्यवसाय बन गया। बड़े होटलों, अस्पतालों और व्यावसायिक संस्थानों का कूड़ा-करकट, बचा

में निपट गया, अब मजे से ससाह भर कूड़ा फेंकिए, एक दिन में उठवा दीजिए। इस अभियान में देश अधिक स्वच्छ हुआ कि अस्वच्छ? इस पर चिंतन बाद में करेंगे। अभी तो कूड़ा स्वच्छता अभियान के मशीनीकरण का प्रशस्तिगायन काजिए। आप चाहें तो ताली भी बजा सकते हैं। लेकिन तालियां क्यों न सुरक्षित रख ली जाएं।

-सुरेश सेठ

पौष कृष्ण पक्ष द्वादशी

राशिफल

(विक्रम संवत् 2081)



मेघ- (वृ, च, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ)

आनंददायक जीवन गुजरेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी।



वृष- (ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो)

शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम-संतान का साथ होगा।



मिथुन- (का, की, कु, घ, ड, ङ, के, हो, हा)

भावुक होकर कोई निर्णय न लें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक कर रखें। प्रेम में तू-मैं से बचें।



कर्क- (ही, हू, हे, हो, उ, डी, डू, डे, डा)

गृहकलह के संकेत हैं लेकिन भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के पूर्ण योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा।



सिंह- (मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू, टे)

व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा।



कन्या- (ते, पा, पी, पु, प, ण, ट, पे, पो)

धन आगमन होगा। अपनों में वृद्धि होगी। कुटुंबों में वृद्धि होगी। जुआ, सट्टा, लॉटरी में अभी पैसे न लगाएं।



तुला- (रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते)

आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। समाज में सहना होगा। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम-संतान अच्छा व व्यापार अच्छा।



वृश्चिक- (तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यु)

मन परेशान रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा मध्यम। प्रेम-संतान मध्यम व्यापार अच्छा रहेगा।



धनु- (ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ठा, भे)

आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम-संतान मध्यम। व्यापार बहुत अच्छा।



मकर- (भो, जा, जी, जू, जे, जो, खा, खी, खु, खे, गा, गी)

कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम-संतान बहुत अच्छा व व्यापार बहुत अच्छा।



कुम्भ- (गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, षो, ढ)

भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे।



मीन- (दी, दु, झ, ध, दे, दो, च, चा, चि)

बचकर पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। कोई रिस्क न लें। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार मध्यम है।

प्रभात पांडे की मौत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा



नोएडा (चेतना मंच)। कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की पुलिस उल्पीडन में मौत के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 19 सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया।

इस अवसर पर मुकेश यादव ने बताया कि 18 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा घेराव के

दौरान युवक कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की पुलिस उल्पीडन से मौत हुई उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए एवं जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय सचिव लियाकत चौधरी ने कहा है कि भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान है जनता की सुनने वाला कोई नहीं है।

इस मौके पर महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव, वरिष्ठ नेता

फिरे सिंह नागर, उपाध्यक्ष ललित अवाना, वरिष्ठ नेता दिनेश अवाना, पूर्व अध्यक्ष शहाबुद्दीन, अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय सचिव लियाकत चौधरी, वरिष्ठ नेता सतेन्द्र शर्मा, रामकुमार शर्मा, यतेश शर्मा, संजय तनेजा, जिलाध्यक्ष युथ कांग्रेस जावेद खान, विक्रम चौधरी, आर के प्रथम, अरुण प्रधान, रोहित सिंह, विकास सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मेघदूतम पार्क में आग से सात पाम के पेड़ खाक



नोएडा (चेतना मंच)। मेघदूतम पार्क में लगी आग के चलते 7 पाम के बड़े ऊंचे वृक्ष जलकर खाक हो गए। सेक्टर-51 आरडब्ल्यूए के महासचिव संजीव कुमार ने कहा कि यदि पार्क में नियमित सफाई करी जाती और पेड़ों के कटिंग को ट्रेक और पेड़ों के पास से हटाया जाता तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था। मेघदूतम पार्क में इन दोनों सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। शौचालय की सफाई नहीं होती गाजीबो है में गंदगी पड़ी रहती है। कच्चा और पके ट्रेक के साथ-साथ हर और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जो हटाए नहीं जाते।

पिछले साल भी अनेकों दफा इस पार्क में आग लगी थी अब यह आग लगने का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। यदि जल्दी नोएडा के सभी पार्कों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कराई जाती तो पॉल्यूशन के इस दौर में पार्कों से मिलने वाली ऑक्सीजन भी समाप्त हो जाएगी।

सेक्टर-51 पहुंची 'नोएडा आप के द्वार' टीम



नोएडा (चेतना मंच)। नोएडा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्राधिकरण अधिकारियों ने सेक्टर-51 का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने बैठक कर सेक्टर-51ए एवं बी के सेक्टरवासियों की समस्याएं सुनीं और उनका तत्काल निस्तारण का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान सेक्टरवासियों द्वारा नोएडा प्राधिकरण के विभिन्न विभागों की 9 समस्याएं दर्ज कराई गईं। बैठक में सेक्टर-51ए एवं बी

आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों द्वारा सेक्टर में लगे पेड़ों पर लग रहे कीड़ों की रोकथाम के लिए कैमिकल का छिड़काव कराने, पार्क में ओपन जिम की मरम्मत कराने ए-ब्लॉक की ग्रीन बेल्ट का अनुरक्षण कराने जाने की मांग की। वहीं सेक्टर के ए-ब्लॉक में मकान संख्या ए-11 से ए-36 तक खुली नालियों को एसएफआरसी से ढकने तथा सेक्टर में मकान संख्या ए-40 से ए-28 तक निर्मित नाली की मरम्मत

कराने की मांग की गई। इसके अलावा सेक्टर 50-51 के मध्य की सड़क पर सेक्टर-51 के गेट नंबर- 3 के सामने स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराने की मांग सेक्टरवासियों द्वारा की गई। सेक्टरवासियों की समस्याएं सुनने के पश्चात प्राधिकरण अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्राप्त शिकायतों को 10 दिन के अंदर निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

पुलिस के संरक्षण में सरैराह छलक रहे हैं जाम, भाजपा नेताओं ने की शिकायत




नोएडा (चेतना मंच)। पुलिस की मिलीभगत से कुछ थाना क्षेत्रों में खुलेआम जाम छलक रहे हैं। शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय

पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (दर्जा प्राप्त केन्द्रीय मंत्री) डा. लोकेश प्रजापति के नोएडा कैम्प प्रभारी जय प्रकाश प्रजापति ने यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरौला, गोल चक्कर, निठारी, 12/22, हरिहरन, सेक्टर-18 समेत कई चौकी क्षेत्रों में शाम होते ही सड़कों पर मौजूद चिकन तथा पिशा बेचने वालों की दुकानों पर शराबियों का जमघट लग जाता है। खुलेआम सड़कों पर लोग बाइक व कारों लगाकर शराब पीते हैं। इससे मोट-मुर्गा व मछली लेने वालों की भी बिक्री होती है। कुछ दुकानदारों ने बताया कि इसके लिए वे बाकायदा चौकी पुलिस को हप्ता देते हैं। इसी लिए पुलिस उनके यहां कार्रवाई नहीं करती है। जयप्रकाश ने इसकी शिकायत पुलिस के शीर्ष अफसरों के अलावा मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव को भी लिखकर भेजी है।

लुटेरी दुल्हन गैंग के महिला समेत 4 सदस्य गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। थाना सूरजपुर पुलिस व सर्विलांस/सीडीटी टीम के संयुक्त प्रयास से लुटेरी दुल्हन गैंग के मुखिया सहित चार को गिरफ्तार किया गया। मुखिया प्रदीप पुत्र राजेन्द्र भारद्वाज व अन्य सदस्य आमिर पुत्र अब्दुल हफीज, संतोष पुत्र गोपीचंद एवं एक महिला अभियुक्ता मालती पत्नी थानसिंह को आज 26 दिसंबर को इन्द्रानगर थाना देहलीगेट जिला अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। जिनके विरुद्ध थाना सूरजपुर में केस पंजीकृत है। इस गैंग ने शादी की इच्छा रखने वाले कई लोगों को शिकार बनाया था।

उक्त गैंग के सदस्यों द्वारा समाज के मध्य रहकर भोली-भाली लड़कियों एवं महिलाओं को शादी के नाम पर बहला फुसलाकर अपने गैंग में मिलाकर ऐसे व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाता है जिन्हें शादी की इच्छा होती है। पैसे से मोल भाव कर इनके



द्वारा शादी तय की जाती है। एवं अपने गैंग की लड़की या महिला से इच्छित व्यक्तियों को शादी करा दी जाती है, तथा पैसा लिया जाता है। व पैसा गैंग के सदस्यों एवं दुल्हन बनी लड़की में बांट दिया जाता है। फिर लड़की को विदा करने के नाम पर दुल्हन को जेवर, गहना आदि के साथ वापस ले आते हैं या दुल्हन स्वयं मौका पाकर भाग आती है। तत्पश्चात गैंग मुखिया प्रदीप पुत्र राजेन्द्र व अन्य सदस्य

लड़की सहित गायब हो जाते हैं। उक्त गिरोह में मालती देवी दुल्हन की माता या मौसी बनकर अपना कार्य करती है। थाना सूरजपुर क्षेत्र के कस्बा सूरजपुर से भी एक लड़की को इनके द्वारा अपने गैंग में जानबूझकर शादी कराया गया। सर्विलांस टीम एवं पुलिस की सूझबूझ एवं तत्परता से उक्त लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया एवं इस लुटेरी दुल्हन गैंग के

उद्यमियों की समस्याओं का प्रमुखता से हो समाधान : डीएम

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु समिति की बैठक डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जलभराव, विद्युत कटौती, ट्रैफिक जाम, ईएसआई अस्पताल निर्माण, टूटी सड़कें व अतिक्रमण जैसी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग उद्यमियों ने डीएम से की।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में कल-कारखाना संचालित करने वाले उद्यमियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। डीएम ने उद्यमी संगठन से जुड़े हुए प्रतिनिधियों की जलभराव, विद्युत कटौती, ट्रैफिक जाम सहित अन्य समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित



विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये। संबंधित विभाग के अधिकारी अभियान चलाकर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विद्यानाथ शुक्ल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार, सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रभात पाण्डेय की मौत की निष्पक्ष जांच के लिए कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। जिला कांग्रेस (पूर्व मंत्री) द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर कमेटी गौतमबुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं ने बीते आह्वान किये उत्तर प्रदेश विधानसभा घेराव के



ससाह उत्तर प्रदेश विधानसभा घेराव के दौरान पुलिसिया दमन के कारण कांग्रेस कार्यकर्ता स्व. प्रभात पाण्डेय की मौत की निष्पक्ष जांच के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट परिसर सूरजपुर में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया।

जिला संगठन प्रभारी महासचिव मुकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

एलान के साथ ही तमाम जनपदों में कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को उनके घरों में ही बंधक बना कर रखा गया था।

जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी ने कहा कि रोक-टोक के बावजूद हजारों कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचने में सफल रहे व विधानसभा घेराव को निकले कार्यकर्ताओं नेताओं को हजारों की तादाद में लगाए गए पुलिस व अर्धसैनिक बलों

के जवानों ने लखनऊ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया।

जिला उपाध्यक्ष निशा शर्मा ने मौके पर ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे अपर जिलाधिकारी मंगलेश दुबे से कहा कि जनपद गोरखपुर निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता स्व. प्रभात पाण्डेय की दुखद मृत्यु इस विधानसभा घेराव के दौरान हुई है। हम आपके मार्फत राज्यपाल महोदया से उक्त घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हैं।

ज्ञापन कार्यक्रम में जिला संगठन प्रभारी मुकेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी, जिला उपाध्यक्ष निशा शर्मा, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला चेयरमैन धर्म सिंह, जिला महासचिव कल्पना सिंह, जिला सचिव सुबोध भट्ट, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कपिल भाटी एडवोकेट, जिला सचिव दीपक प्रजापति, विन्डू नेता, सचिन शर्मा, बांबी प्रधान, अमित कुमार, सचिन भाटी, संदीप भाटी, विक्रम सिंह, सुरेंद्र पंडित, शिमला सागर एडवोकेट, विकी गौतम आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बेटी बचाओ, बेटी बढाओ के अभियान को आगे बढ़ा रही विनय विंग्स संस्था

नोएडा (चेतना मंच)। नोएडा से संचालित नवगठित संस्था विनय विंग्स नवजीवन ने नोएडा मॉडिया क्लब में महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें महिलाओं और छोटी बच्चियों को सम्मानित किया गया।

महिलाओं का सम्मानित किया सेनेटरी पैड व स्टेनरी बांटी

कार्यक्रम के दौरान बच्चियों देशभक्ति तथा अन्य गानों पर अपनी प्रस्तुति भी दी।

संस्था की अध्यक्ष नीतू यादव ने बताया कि यू तो भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार लगातार महिला उत्थान तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है। लेकिन सरकार के साथ सामाजिक संस्थाओं का भी कर्तव्य है कि वे भी जिस दिशा में काम करें। इसी के मददेनजर मैंने विनय विंग्स की स्थापना की और नवजीवन के टैग के साथ इसको शुरू किया।

नीतू यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कोशिश की कि हमारे आसपास की महिलाओं और बच्चियों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया जाए और उनके हौसलों को नई उड़ान दी जाए।

कार्यक्रम के दौरान छोटी बच्चियों ने कई भावनात्मक प्रस्तुतियों से सबका मन मोहा। साथ



ही उपस्थित महिला समूहों ने भी इन प्रस्तुतियों का आनंद उठाया।

कार्यक्रम के दौरान सभी को मोटोवेट किया गया कि किस तरह हम एक-दूसरे की मदद से देश में बदलाव ला सकें।


इस दौरान महिलाओं को शॉल उड़ाकर

सम्मानित किया गया और उन्हें सेनेटरी पैड भी वितरित किए गए। साथ ही बच्चों को को स्टेनरी आदि भेंट की गई।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अभिमन्यु पांडेय, गुडिया भदौरिया, रेखा यादव, ज्योति पटेल, प्रीति सिंह की उपस्थिति रही।

GRV BUILDCON
Concept to reality

ARCHITECTURE / CONSTRUCTION / INTERIORS
WE DON'T DESIGN HOME / OFFICE
WE DESIGN DREAMS!



Certified by :



startupindia



Contact Us : 9999472324, 9999082512
www.grvbuildcon.com

भाजपा ने मनाया 'वीर बाल दिवस'



ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। भाजपा जिला गौतमबुद्धनगर शीप नेतृत्व के दिशानिर्देश पर सभी 11 मंडलों पर बाल दिवस मनाया गया। जिला इकाई एवं ग्रेटर नोएडा मंडल के कार्यकर्ता अल्फा 2 के गुरुद्वारे में पहुँच कर धर्मरक्षा में सर्वोच्च बलिदान धर्म के बाले हुए बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेहसिंह को याद करते हुए उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वीर बाल दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री योगेश चौधरी व

धर्मरक्षा को साहबजादो को याद करते हुए बताया कि गुरु गोविंद सिंह के चार साहिबजादों की शहादत के उपलक्ष्य पर पूरे देश में वीर बाल दिवस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 2022 से 21 दिसम्बर 2027 तक एक सप्ताह तक पूरे देश में बाल दिवस के रूप मनाया जा रहा है। मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना से लड़ते पूरा परिवार बलिदान हुआ गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की याद में इस दिवस को मनाया जाता है।

जोरावर सिंह फतेह सिंह को मुगलों ने उनको यातनाएँ देकर दीवारों में जिंदा चिनवा दिया पर उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया मुगलों को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया लेकिन सिर नहीं झुकाया। वही जिला उपाध्यक्ष कार्यक्रम संयोजक पवन नागर ने बताया कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीर बाल दिवस का कार्यक्रम जमीनी स्तर पर करवा कर राष्ट्रभक्ति, धर्मरक्षा की भावना को जगाने का प्रयास किया

भाकियू (बलराज) की स्वाभिमान महापंचायत शुरू

चेतना मंच
ग्रेटर नोएडा। भारतीय किसान यूनियन (बलराज) की आज होने वाली जिला कलेक्टर पर किसान स्वाभिमान महापंचायत शुरू हो गई महापंचायत में भारी संख्या में लोग पहुंचने लगे थे।



भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के जिला अध्यक्ष योगेश वैष्णव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता गाड़ियों एवं अन्य वाहनों से जिला कलेक्टर के लिए कूच किये। जिला अध्यक्ष योगेश वैष्णव ने बताया कि आज किसान स्वाभिमान पंचायत का आयोजन जिला कलेक्टर में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं एवं उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर महापंचायत में निर्णय लिया

बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु नोडल शिक्षक का पांच दिवसीय प्रशिक्षण



ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। उच्च प्राथमिक विद्यालय लुक्कर में समेकित शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु नोडल अध्यापक का पांच दिवसीय प्रशिक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर के निर्देशन व खण्ड शिक्षा अधिकारी दनका के निदेशन में किया गया। जिसमें दनका के 75 नोडल शिक्षक, निरंजन नागर, सरिता यादव, माला बजाज, लता वर्मा, कमलेश यादव, शांतिनी गुप्ता, दीप्ति यादव, ममता राजपूत, नवनीत तिवारी, शौकत अली, ट्रेनर अनिल कुमार, वृत्तिका शुक्ला, राकेश कुमार भारतीय प्रशिक्षण में दिव्यांग

बच्चों की दिव्यांगता को विस्तार पूर्वक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त माइयूल के अनुसार प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागी प्रवीण शर्मा, वृजेशपाल, सन्तोष नागर, बलराम नागर, सतीश पीलवान, अरविन्द शर्मा, निरंजन नागर, सरिता यादव, माला बजाज, लता वर्मा, कमलेश यादव, शांतिनी गुप्ता, दीप्ति यादव, ममता राजपूत, नवनीत तिवारी, शौकत अली, ट्रेनर अनिल कुमार, वृत्तिका शुक्ला, राकेश कुमार भारतीय प्रशिक्षण में दिव्यांग

भाकियू की पंचायत 30 दिसंबर 'वीर बाल दिवस' पर गुरुद्वारा पहुंचे सांसद डा. महेश शर्मा को राकेश टिकैत होंगे शामिल



ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। जिले में लेकर चल रहे किसान आंदोलन के तहत आगामी 30 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में एक पंचायत का आयोजन किया गया है पंचायत को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत संबोधित

करेंगे। यह जानकारी महापंचायत के आयोजक एवं भारतीय किसान यूनियन पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना ने दी है। कल पवन खटाना के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें महापंचायत को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहां पंचायत को सफल बनाने के लिए मिर्जापुर गांव भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। जिसमें कई लोग शामिल रहे। पवन खटाना ने कहा कि 30 दिसंबर को होने वाली पंचायत ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि चौधरी राकेश टिकैत सुबह 10.00 बजे



पंचायत स्थल पर पहुंचेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। पवन खटाना ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि पंचायत की सफलता को लेकर गांव-गांव जाएं और किसानों को कार्यक्रम में पहुंचने की उनसे अपील करें।



नोएडा (चेतना मंच)। पंजाबी एकता समिति द्वारा "वीर बाल दिवस" का आयोजन किया गया। सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. महेश शर्मा ने "वीर बाल दिवस" के अवसर पर नोएडा के सेक्टर-12 के स्थित गुरुद्वारा साहिब में उपस्थित होकर शीश झुकाया एवं वीर साहिबजादों के बलिदान को नमन

किया। ग्रंथियों द्वारा पावन गुरुवाणी का सुमिरन किया। गुरुवाणी सुनने के बाद लंगर प्रसाद का भी वितरण किया गया। राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अपनी जान की आहुति दी थी, लेकिन उन्होंने किसी भी दबाव के आगे आत्मसमर्पण नहीं

किया। उनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इस दौरान नोएडा पंजाबी एकता समिति अध्यक्ष वीरेंद्र मेहता, विनीत मेहता, गिरिजा सिंह, सांसद प्रतिनिधि संजय बाली, भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र चैपड़ा, गौरव चारचा, नवीन सोनी, अनिल खन्ना, अतुल सहाल, अतुल मल्होत्रा, जसविन्द्र, राकेश

खन्ना, अश्वनी सरदाना, भाजपा महामंत्री डिम्पल आनंद, सेक्टर-12 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पुनीत शुक्ला, भाजपा महासचिव गणेश जाटव, फोनरवा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक मिश्रा, प्रदीप शर्मा, शीतल शुक्ला आदि काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं भक्तगण उपस्थित रहे।

संबंध-विच्छेद
मैं, रक्षपाल सिंह पुत्र श्री सोनेलाल निवासी 390, हल्दानी, कुलेसरा, जिला गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र विपिन शास्त्री तथा पुत्रवधु करिश्मा उर्फ रानी का मेरे तथा परिवार के प्रति आचरण व व्यवहार ठीक नहीं है। अतः वे अपने पुत्र विपिन शास्त्री पुत्रवधु करिश्मा उर्फ रानी से संबंध विच्छेद करते हैं। मैं अपनी सभी चल तथा अचल संपत्ति से अपने पुत्र विपिन एवं पुत्रवधु करिश्मा उर्फ रानी को वंचित करता हूँ। यदि मेरे पुत्र व पुत्रवधु द्वारा किसी व्यक्ति से कोई वस्तु या पैसा उधार लिए जाते हैं या लिए गए हैं या वह कोई लेनदेन करते हैं तो उनका तथा परिवार इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही उनकी कोई देनदारी होगी। किसी भी गलत आचरण अथवा अवैध कृत्य के लिए मेरा पुत्र विपिन शाह तथा उसकी पत्नी करिश्मा उर्फ रानी ही पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

सेक्टर-112 के निवासियों में 6 साल से चुनाव ना करवाने को लेकर भारी आक्रोश



नोएडा (चेतना मंच)। सेक्टर-112 में रजिस्ट्रार वेलफेयर एसोसिएशन (किसान कोटा) के अलोकनाथिक रूप से स्व घोषित अध्यक्ष व महासचिव लगातार डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेशों की अवहेलना करने पर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा आरडब्ल्यूए किसान कोटा के अक्टूबर 2022 के चुनाव की जांच की गई। जांच में चुनाव फर्जी पाया गया था। 26 सितंबर को

डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव को जीरो मानते हुए तहसीलदार दादरी को चुनाव अधिकारी नियुक्त करते हुए एक महीने के अंदर चुनाव कराने के आदेश दिए थे। 2 महीने बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं हुए हैं सेक्टर 112 में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है व अराजकता माहौल है जिसकी वजह से शाम के समय अराजक तत्वों व नशेदियों का जमावड़ा सेक्टर के अंदर लग जाता है लगातार घरों में चोरियां हो रही हैं। जिसको देखते

हुए बड़ी संख्या में सेक्टर निवासी आज एक बार फिर डिप्टी रजिस्ट्रार से मिले और उनसे चुनाव करवाने की गुहार लगाई। डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ मीटिंग में मुख्य रूप से विकास चौधरी, अमोल सिंह, राहुल शर्मा, महेश सिंह तोमर, प्रवीण अग्निहोत्री, संजय शर्मा, दिव्यम पवार, चिराग दत्ता, मिंगलानी व अन्य सेक्टर निवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। डिप्टी रजिस्ट्रार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा।

शराब की दुकान का ताला तोड़कर नकदी चोरी

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। थाना सूरजपुर क्षेत्र के ग्राम गुलिस्तानपुर में चोरों ने अंग्रेजी शराब की दुकान का ताला तोड़कर नगदी चोरी कर ली। शराब ठेके के संचालक की शिकायत पर थाना सूरजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ग्राम रानोली लतीफपुर निवासी कपिल बंसल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी ग्राम गुलिस्तानपुर में अंग्रेजी शराब की दुकान है। 21 दिसंबर की रात्रि को वह दुकान बंद कर अपने घर चला गया। 22 दिसंबर की सुबह जब वह शराब के ठेके पर पहुंचा तो उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ था। दुकान के भीतर जाने पर पता चला कि चोरों ने गल्ले में रखे पैसे चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेज को खंगाल कर पुलिस चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

सपा नेता ने दी डॉ. मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि



नोएडा (चेतना मंच)। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एक महान राजनेता होने के साथ ही दूरदर्शी नेता और भारत की आर्थिक क्रांति के निर्माता भी थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पवका कुंवर बिलाल बर्नी ने एक प्रेस नोट जारी कर अपनी ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरलता, विनम्रता और देश के प्रति उनकी अटूट सेवा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने नेतृत्व और समर्पण से न केवल भारत को एक



नई दिशा दी, बल्कि पूरी दुनिया में देश की पहचान मजबूत की। डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनकी विरासत और विचारधारा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

पृष्ठ एक के शेष....

बारिश व ठंड की ...
और दोनों दिन तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। साथ ही मध्यम स्तर का कोहरा हो सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा और गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस रह सकती है।

लिए काम किया। उनके निधन से देश ने अपना बेड़ा खो दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर मौजूद हैं।

फर्जीवाड़ा कर बेटी...
के आधार पर संशोधन कराया गया है। उसने इसकी शिकायत पुलिस से भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीडित का आरोप है कि 14 मार्च 2024 को उसकी बेटी का दूसरी बार अपहरण कर लिया गया। उसने इसकी शिकायत पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय में याचिका दायर कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा जाने की गुहार लगाई। थाना प्रभारी ने बताया कि पीडित की शिकायत पर कूट रचित दस्तावेज

ट्रक चालक की...
इसके बाद उसने फोन कर अपने साथी कर्मचारियों को बताया था कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। पुलिस का कहना है की मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। मृतक के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है।

घर में घुसकर जानलेवा
आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की गुहार लगाई। थाना प्रभारी ने बताया कि पीडित की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मामला न्यायालय के निर्देश पर दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

गाड़ी खड़ी करने के...
झगड़ा होता देखकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर अपनी कार में सवार होकर फरार हो गए। थाना प्रभारी का कहना है कि पीडित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीडित द्वारा उपलब्ध कराए गए कार नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

डॉ मनमोहन के निधन...
नोएडा महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव, प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम नागर, पूर्व महानगर अध्यक्ष रामकुमार तंवर, पूर्व पीसीसी सदस्य सत्येंद्र शर्मा, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय मंत्री लियकत चौधरी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष तथा मीडिया प्रभारी पवन शर्मा, महामंत्री व पीसीसी सदस्य यतेंद्र शर्मा, समेत कई नेताओं ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर काफी दुख जताया। उन्होंने कहा कि देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री को दिया जो न सिर्फ एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे बल्कि देश के विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।

दैनिक चेतना मंच
भगवान हनुमान बजरंग बली के अवतार श्री बालाजी (मंहेदीपुर) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में समर्पित है।
डाक पंजी. सं. L-10/GBD-574/99
RNI No. 69950/98
स्वामी मुदक प्रकाशक
रामपाल सिंह रघुवंशी
ने बीएफएल इन्फोटेक लि. सी-9, सेक्टर-3, नोएडा, गौतमबुद्धनगर (यू.पी.) से छपवाकर, ए-131 सेक्टर-83, नोएडा से प्रकाशित किया।
संपादक-रामपाल सिंह रघुवंशी
Contact:-
0120-2518100,
4576372, 2518200
Mo.: 9811735566,
8750322340
E-mail:-
chetnamanch.pr@gmail.com
raghuvanshirampal365@gmail.com
raghuvanshi_rampal@yahoo.co.in
www.chetnamanch.com

खास खबर

रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद
मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गुरुवार को 11 पैसे की गिरावट के साथ ही अपने सर्वकालिक निचले स्तर 85.26 पर बंद हुआ। आज सुबह शुरूआती कारोबार में रुपया 10 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.25 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 10 पैसे की गिरावट दर्शाता है। वहीं रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.15 पर बंद हुआ था।

देश के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़े
नई दिल्ली। क्रिसमस के अगले ही दिन गुरुवार को तेल कंपनियों ने कई शहरों में इंधन के दाम बढ़ा दिए हैं। हालांकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े महानगरों में कीमतें स्थिर रही। बिहार के पटना में पेट्रोल और डीजल के दाम में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोल 53 पैसे महंगा होकर 106.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल 51 पैसे बढ़कर 92.92 रुपये प्रति लीटर हो गया। गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत कई अन्य शहरों में भी मामूली बढ़ोतरी देखी गई।

महाराष्ट्र में वाहनों के हाई-सिक्वोरिटी नंबर प्लेट की कीमत तय
मुंबई। महाराष्ट्र में अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई-सिक्वोरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए वाहन मालिकों को 531 रुपये से 879 रुपये तक की कीमत अदा करनी होगी। वाहन के प्रकार के आधार पर यह लागत फिक्स की गई है, जैसे कि दोपहिया वाहनों के लिए 531 रुपये, ऑटो-रिक्शा के लिए 590 रुपये और बड़े वाहनों के लिए 879 रुपये। माना जा रहा है कि हाई-सिक्वोरिटी नंबर प्लेट का उपयोग दुर्घटनाओं और चोरी से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि यह एक अवसर भी प्रदान करेगा स्थानीय पुलिस को अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों के साथ भी इस कार्रवाई को लागू किया गया है। यह नया पहलू वाहनों के सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की 238 करोड़ जुटाने की योजना
नई दिल्ली। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमएसई) ने अपने कारोबार को जारी रखने के लिए चार इकाइयों से 238 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी की है। ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेयर, जीरोधा की रेनमेटर इन्वेस्टमेंट्स, बीएसई-सूचीबद्ध शेरर इंडिया सिक्वोरिटीज और सिक्वोरिटी सिक्वोरिटीज इंडिया ने ये चार इकाइयां सभी मिलकर इस निवेश में शामिल होने का निर्णय लिया है। एमएसई की वेबसाइट पर मौजूद सूचना के अनुसार निवेशकों को 1.19 अरब शेर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें एक रुपये मूल्य और एक रुपये प्रीमियम शामिल होगा। ये निवेशक ने हाल ही में मंजूरी दी है। शेरर इंडिया सिक्वोरिटीज ने एमएसई में 59.5 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

जियो ने किया 5जी वाउचर प्लान लॉन्च
नई दिल्ली। जियो रीवाज प्लान साल 2024 में समाप्त होने के बाद नए साल 2025 का आगमन किया जा रहा है। इस अवसर पर टैलीकॉम कंपनी ने अपने ग्राहकों को नए और बेहतर रिवाज प्लानों की पेशकशी की है। इस प्लानमार्ग के अनुसार जियो ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए नया 5जी वाउचर प्लान लॉन्च किया है। इस पैक में ग्राहकों को 12 महीने तक अनलिमिटेड डेटा के साथ कॉल और एसएमएस की सुविधा दी जा रही है।

आरबीआई ने किया एआई के 8 सदस्यीय पैनल का गठन

- ❖ पहली बैठक की तारीख से छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी
- ❖ यह पैनल वैश्विक स्तर के साथ-साथ भारत में वित्तीय सेवाओं में एआई को अपनाने के वर्तमान स्तर का आकलन करेगा
- ❖ समिति वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए एआई पर विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा करेगी



एजेंसी मुंबई/नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के बारे में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरुवार को 8 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ये समिति पहली बैठक की तारीख से छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य इस समिति के अध्यक्ष होंगे। भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली यह पैनल वैश्विक स्तर के साथ-साथ भारत में एआई सेवाओं में एआई को अपनाने के वर्तमान स्तर का आकलन करेगा। यह समिति वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र पर

ध्यान केंद्रित करते हुए एआई पर विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा करेगी। आरबीआई ने कहा कि इस समिति में देवजानी घोष (स्वतंत्र निदेशक, रिजर्व बैंक इन्वेंशन हब), बलरामन रवींद्रन (प्रोफेसर और प्रमुख, वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई, आईआईटी मद्रास), अभिषेक सिंह (अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

शामिल हैं। इनके अलावा राहुल मथन (साझेदार, ट्राइलीगल), अंजनी राठौर (समूह प्रमुख और मुख्य डिजिटल अनुभव अधिकारी, एचडीएफसी बैंक), हरि नागरालू (सुरक्षा एआई अनुसंधान प्रमुख, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया) और सुवेंदु पति (मुख्य महाप्रबंधक, वित्त प्रौद्योगिकी, आरबीआई) को सदस्य बनाया गया है।

एनएसई से जुड़े 15.2 लाख नए निवेशक, इन्वेस्टर्स संख्या 10.7 करोड़ के पार

एजेंसी नई दिल्ली। अक्टूबर और नवंबर में घरेलू शेर बाजार में आई गिरावट के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर रजिस्टर होने वाले निवेशकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में एनएसई से कुल 15.20 लाख नए निवेशक जुड़े, जो पिछले 7 महीने का सबसे निचला स्तर है। हालांकि एनएसई पर रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या नवंबर के महीने तक 10.72 करोड़ हो गई थी। इस साल फरवरी में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या 9 करोड़ से कुछ अधिक थी, जो अगस्त तक 10 करोड़ हो गई थी। एनएसई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर-नवंबर में बाजार में आई गिरावट



पर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या इस साल अप्रैल के महीने में ही एक करोड़ के स्तर को पार कर गई थी, जबकि अगले 7 महीने में यानी नवंबर तक उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स का आंकड़ा 1.20 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया। क्षेत्रीय

आधार पर देखा जाए तो एनएसई में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में से 3.90 करोड़ इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि पश्चिमी क्षेत्र दूसरे स्थान पर बना हुआ है। हालांकि 2022 तक पश्चिम क्षेत्र रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में सबसे ऊपर बना हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की दिसंबर की मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक एनएसई में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 2021-22 में कुल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में 22 प्रतिशत महिलाएं थीं लेकिन नवंबर 2024 तक महिलाओं की भागीदारी 24 प्रतिशत हो चुकी है। इसी तरह एनएसई पर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की औसत आयु 35.8 साल है।

देश के सात प्रमुख शहरों में आवास बिक्री में गिरावट का अनुमान : रिपोर्ट



इस साल बिक्री 16 प्रतिशत बढ़कर 5.68 लाख करोड़ पहुंच सकती है

एजेंसी नई दिल्ली। भारत में इस वर्ष देश के सात प्रमुख शहरों में आवास बिक्री में चार प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया है, जिससे करीब 4.6 लाख इकाई अवैतनिक रहेंगी। इसके विपरीत बिक्री में मासिक रूप से पाया गया है कि इस साल बिक्री 16 प्रतिशत बढ़कर करीब 5.68 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकती है। एक रियल

शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी



एजेंसी नई दिल्ली। घरेलू शेर बाजार गुरुवार को ज्यादातर समय सीमित दायरे में कारोबार करके सपाट स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में तेजी आ गई, लेकिन पहले 15 मिनट के कारोबार के बाद ही बिकवाली का दबाव बन जाने की वजह से ये दोनों सूचकांक गिरावट का शिकार हो गए। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.39 अंक की सकारितिक

आरआईएनएल को मिला आंध्र प्रदेश ऊर्जा संरक्षण का स्वर्ण पुरस्कार

एजेंसी नई दिल्ली। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेशन इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने आंध्र प्रदेश (एपी) ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2024 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। आरआईएनएल को पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेशन इकाई आरआईएनएल ने लौह और इस्पात श्रेणियों में ऊर्जा संरक्षण को दिशा में अपनी महत्वपूर्ण पहल के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024



प्रतियोगिताओं में प्रतिष्ठित 'गोल्ड अवार्ड' जीता है। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में विजयवाड़ा में आयोजित ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा) के. विजयानंद, आरआईएनएल से आरआईएनएल की ओर से उत्तम ब्रह्मा, महाप्रबंधक (ऊर्जा, पर्यावरण एवं उपयोगिताएं)

अब सिगरेट, गुटखा और पान मसाला पर होगी यूनिफ आइडी

एफएमसीजी, मेटल, बैंकिंग और आईटी इंडेक्स बिकवाली के दबाव के कारण लाल निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में आज मिला-जुला कारोबार होता रहा, जिसके कारण बीएसई का मिडकेप इंडेक्स 0.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। स्मॉलकैप इंडेक्स के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेर बाजार में सपाट कारोबार होने के बावजूद स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संतुष्टि में 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई।

आरआईएनएल और वीवीवीएस पुल्ला रेड्डी, उप-महाप्रबंधक (ऊर्जा प्रबंधन विभाग) आरआईएनएल ने स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया। इस्पात मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार आरआईएनएल को पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने तथा अपशिष्ट ऊर्जा का दोहन करने के लिए दिया गया।

होंडा मोटरसाइकिल ने लॉन्च किया नया 2025 यूनिकॉर्न

रांची। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने आज नई यूनिकॉर्न लॉन्च की है, जो OBD2B मानकों के अनुरूप है। यह बाइक परफॉर्मेंस और पर्यटकों का एक सदाबहार प्रतीक है। इसे आज के तरक्कीपसंद ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए एक हाई-टेक फ्रैमवर्क से लैस किया गया है। 2025 होंडा यूनिकॉर्न की कीमत 1,19,481 रुपये रखी गई है। नई

यूनिकॉर्न को पेश करते हुए होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और सीओओ लुत्सुमु ओतानी ने कहा, होंडा यूनिकॉर्न हमेशा से भारत के प्रीमियम यात्री वर्ग में अग्रणी रही है। पिछले कुछ वर्षों में, हमने लाखों ग्राहकों का भरोसा जीता है और



आराम का पर्याय बन चुकी है। नए 2025 मॉडल के लॉन्च के साथ, हम इसकी विरासत को और मजबूत कर रहे हैं। नए फीचर्स और अपडेटेड यूनिकॉर्न के आकर्षण को नई पीढ़ी के ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। लॉन्च पर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के सेंस और मार्केटिंग डायरेक्टर योगेश माथुर ने कहा, 2025 यूनिकॉर्न में होंडा की प्रमाणित इंजीनियरिंग को एडवांस्ड फीचर्स, व्यावहारिकता और OBD2B मानकों के अनुरूप अपडेटेड इंजन जैसे कई खास खूबियों के साथ जोड़ा गया है।

होंडा एस्प्री 160 नए साल में नए फीचर्स के साथ बाजार में उतरेगी

मुंबई। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने साल 2025 के लिए अपनी लोकप्रिय बाइक एस्प्री 160 को अपडेट किया है। इस अपडेट के साथ यह बाइक कम्प्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट के लेटेस्ट ट्रेंड में शामिल हो गई है। हालांकि, अपडेट के चलते होंडा बाइक का दाम भी थोड़ा बढ़ाया गया है। सिंगल-डिस्क वैरिएंट की कीमत अब 3,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,21,951 रुपये हो गई है, जबकि डबल-डिस्क वैरिएंट की कीमत 4,605 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,27,956 रुपये हो गई है। होंडा ने एस्प्री 160 को ओवरऑल स्टाइल और डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया है। कंपनी इसे चार कलर के साथ बाजार में पेश कर रही है।

एंड पिक्चर्स पर खिचड़ी 2 का प्रीमियर

एजेंसी मुंबई। कहते हैं अंत भला तो सब भला। एंड पिक्चर्स लेकर आ रहा है आपके फेवरिट परेख परिवार की धमकेदार वापसी। 'खिचड़ी 2' का प्रीमियर 29 दिसंबर को शाम 5 बजे, और साल को हसते-हसते अलविदा कहें। पुरानी यादों और नए मजेदार टिविस्ट का जबर्दस्त कॉम्बो, 'खिचड़ी 2' साल को अलविदा कहने का बेस्ट मौका लेकर आया है। फिल्म के प्रोड्यूसर जमनादास मजेटिया कहते हैं, 'खिचड़ी 2 परिवार और उनके मजबूत रिश्तों का जश्न है। खिचड़ी की बुनियाद में वापस जाना मेरे लिए बेहद दिलचस्प और जन्माती सफर रहा, जिसने एक बार फिर देर सारी यादें और खुशी के पल ताजा कर दिए। दर्शकों के



पलों का यह मिलाजुला सफर दिखाता है कि परिवार कैसे इस मुश्किल में एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आतिथ्य कवाडिया बताते हैं, इस फिल्म को लिखने और निर्देशित करने के साथ-साथ इस को-प्रोड्यूसर करना मेरे लिए एक बेहद दिलचस्प और सुकून भरा सफर रहा है।

लाइवलीहुड प्रोग्राम स्वर्ण पदक से सम्मानित

रांची। एक्सिस बैंक फाउंडेशन (एबीएफ) को फिक्की के चौथे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवाइर्स समारोह 2024 में प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु अनुकूल कृषि श्रेणियों के अंतर्गत जलवायु अनुकूल, स्मार्ट कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के वर्धनीय प्रबंधन के संबंध में सर्वोत्तम तरीके और नवोन्मेष अपनाने के लिए सम्मानित किया गया। एबीएफ ने इस कार्यक्रम के तहत, वाटरशेड ऑर्गनाइजेशन ट्रस्ट (डब्ल्यूओटीआर) का समर्थन किया, जिसने झारखंड के खुटी जिला, तेलंगाना के नारायणपेट जिला और महाराष्ट्र के अहमदनगर और बीड जिलों में ग्रामीण समुदायों के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने, फसल



की पैदावार में सुधार के लिए कम जोखिम वाली वर्धनीय कृषि पद्धतियों को अपनाने और विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए वाटरशेड विकास कार्य में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया है। इस परियोजना के तहत क्रियान्वित की गई अनेक प्रमुख पहलों के कारण इस क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा है: सिंचाई की बेहतर पहुंच: तेलंगाना और झारखंड में किसानों के लिए सिंचाई तक बेहतर व्यवस्था। आय में वृद्धि: सिंचाई और कृषि पद्धतियों में सुधार के कारण वार्षिक आय में वृद्धि। विविधीकृत कृषि: फलों और कृषि-व्यवसायों की खेती, किचन गार्डनिंग का विकास और बहु-परतीय खेती। संस्थागत सुदृढीकरण: बुनियादी ढांचे के लिए एमजीएनआरआईएएस (मनरेगा) के संसाधनों का लाभ उठाते हुए वीडीसी, एफआईजी, एफपीओ और एसएआईजी जैसे स्थानीय संस्थानों की स्थापना। जलवायु अनुकूल अभ्यास: 8,920 से अधिक किसानों का लागत और अकार्बनिक उर्वरक के उपयोग कम

कम करते हुए जलवायु के अनुकूल तरीकों को अपनाना, उत्पादकता तथा मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाना, करना। गैर-कृषि आजीविका विकास: सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुरूप पशुओं के बाड़े बनाने तथा उनकी मरम्मत करने, पशुधन खरीदने और सुचारु चलने के लिए विपणन सहायता प्रदान करने में लोगों का समर्थन करना। भारत के विविध परिदृश्य, विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्र और समृद्ध प्राकृतिक संसाधन सामुदायिक जीविका, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट (एनआरएम) और ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र में लोग (लक्षित समुदाय) पानी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं।

जेजेएस 2024 में शामिल हुए 50,000 विजिटर्स



रांची। राजस्थान की जेम्स और ज्वेलरी विरासत दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जो राज्य की जीडीपी का 17% हिस्सा बनाता है। इसे ध्यान में रखकर आयोजित किए गए 'द दिसंबर शो' - जयपुर ज्वेलरी शो (जेजेएस) का हाल ही में शानदार समापन हुआ। इस चार दिवसीय इवेंट में लगभग 50,000 विजिटर्स और



सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती व्हिस्की टी

सुबह की चाय पूरे दिन के लिए एनर्जी बोज की तरह होती है, जिसके बिना कुछ लोगों का दिन ही शुरू नहीं होता। वहीं, सर्दियों का मौसम भी चाय की चुस्कीयों के बिना अधूरा ही लगता है लेकिन चाय में मौजूद कैफीन सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में क्यों ना इस हेल्थ चाय पीकर सेहत व दिन को बेहतर बनाया जाए। आज हम आपको व्हिस्की टी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बनती तो आम चाय की तरह ही लेकिन यह सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती।

एल्कोहलिक नहीं सेहत के लिए फायदेमंद
वैसे आपको ये भी बता दें कि इस चाय को पीने से आपको कोई नशा होगा क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली व्हिस्की नॉन एल्कोहलिक होती है। हालांकि इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है लेकिन यह सेहत को नुकसान की बजाय फायदा पहुंचाती है। व्हिस्की-टी पीने के फायदे -

सर्दी-जुकाम से राहत

सर्दी के मौसम में ठंडी हवा के कारण खांसी व जुकाम की समस्या आम देखने को मिलती है। व्हिस्की में मौजूद फायटोकेमिकल्स और अन्य पोषक तत्व सर्दी-जुकाम व दूसरे संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं।

हाइपरटेंशन से निजात

इसमें पाए जाने वाला क्वेरसेटिन नाम का पिट्मेंट, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, जिससे हाइपरटेंशन का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

अनिद्रा की समस्या

अगर आपको नींद न आने की समस्या तो रोजाना सोने से पहले इस चाय का सेवन करें। इससे आपको अच्छी व गहरी नींद आएगी।

पेट से जुड़ी परेशानियां

इस चाय में पाए जाने वाले तत्व पेट जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, एसिडिटी, पेट दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा रोज इसकी चाय पीने से पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है।

वजन कंट्रोल करने में मददगार

अन्य चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होने के कारण वह वजन बढ़ाने का काम करती है लेकिन यह चाय बिल्कुल फेट फ्री है। ऐसे में अगर आप वजन कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस चाय को डाइट में जरूर शामिल करें।

तनाव या टेंशन

वर्क प्रेशर के चलते आजकल हर कोई स्ट्रेस या तनाव की समस्या से झुझ रहा है। अगर इस चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके तनाव व स्ट्रेस को दूर करते हैं, जिससे आप डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी बचे जाते हैं।

इम्यून सिस्टम को करती है बूस्ट

व्हिस्की-टी में विटामिन सी और ए भरपूर मात्रा में होता है, जोकि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे में इसका सेवन इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके आपको कई बीमारियों से बचाता है।

चाय बनाने के लिए सामग्री

सिंगल माल्ट - 2 चम्मच, ब्लैक टी बैग - 1, पानी - 350 ml, दालचीनी - 02 ग्राम, चीनी पाउडर - स्वादानुसार

व्हिस्की चाय बनाने की विधि

चाय बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में 2 चम्मच नॉन एल्कोहलिक सिंगल माल्ट्स 1 ब्लैक टी बैग और दालचीनी डालकर मिलाएं। अब इसे इंप्यूज करने के लिए इसमें पानी डालकर 40 मिनट तक ढककर रखें। फिर इसे चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें चीनी का पाउडर डालकर इसे मीठा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें और कुछ देर बाद इसका सेवन करें।



ऐसे करें काली मिर्च का सेवन

खराब लाइफस्टाइल और बाहर का खाना लोगों को सौगात में मोटापा दे रहा है और तो और भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोग वजन कम करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते। अगर आपके भी वजन घटाने का समय नहीं है तो आप अपने खान-पान में ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं जो वजन घटाने में मददगार होती हैं। काली मिर्च एक मसाला है जो टेस्ट के साथ वजन घटाने में भी मदद करता है। बच्चे और बड़े दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाए तो कई गंभीर रोगों से बचा सकता है। आज हम आपको काली मिर्च से वजन घटाने का तरीका और इसके अन्य फायदे बताएंगे।

वजन घटाने के लिए काली मिर्च

काली मिर्च में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन-ए, सी, और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फाइबर न्यूट्रियंस होते हैं जो वसा की बाहरी परत को तोड़कर शरीर में वसा जमा नहीं होने देते। इसका इस्तेमाल करने से वजन घटाने के अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचा जा सकता है। इसके साथ यह सर्दी-जुकाम में भी बहुत फायदेमंद है। मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो काली मिर्च आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। पकी हुई सब्जी की एक कटोरी में 1 चुटकी काली मिर्च

पाउडर डाल कर सेवन करें। नियमित रूप से इसे खाने पर आपका वजन कम होगा। इसके अलावा आप सलाद, दही व हर्बल टी में इसे मिलाकर भी खा सकते हैं। इसकी आपकी सिर्फ 1 से 2 चुटकी मात्रा ही लेनी है।



अगर आपके भी वजन घटाने का समय नहीं है तो आप अपने खान-पान में ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं जो वजन घटाने में मददगार होती हैं। काली मिर्च एक मसाला है जो टेस्ट के साथ वजन घटाने में भी मदद करता है। बच्चे और बड़े दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाए तो कई गंभीर रोगों से बचा सकता है।

काली मिर्च के अन्य फायदे

कैंसर से करे बचाव

कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिससे बाहर निकलना काफी मुश्किल है। काली मिर्च कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने में मदद करती है। इसके नियमित सेवन से स्तन कैंसर की गांठ नहीं बनती है। काली मिर्च में विटामिन-सी, ए, फ्लेवोनॉयड्स, कारोटेन्स और अन्य एंटी-ऑक्सीडेंट पाये जाते हैं। यह कैंसर को रोकने में काफी मदद करते हैं।

पेट संबंधी समस्याओं से राहत

खराब व अनियमित खान-पान के चलते लोगों को पेट संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपच, दस्त, कब्ज और खट्टी डकार आदि से राहत पाने के लिए काली मिर्च के सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। इससे पेट की पाचन क्रिया सही होती है।

त्वचा की खूबसूरती

काली मिर्च ना सिर्फ शरीर को रोगों से बचाती है बल्कि यह त्वचा को निखारने का भी काम करती है। काली मिर्च को दरदरा पीस कर चेहरे पर रूब रूब करने से त्वचा में चमक आती है। साथ ही कील-मुंहासे भी दूर हो जाएंगे। इससे डेड स्किन भी निकल जाती है।

प्रदूषण का आंखों पर होता है ये असर

प्रदूषित पर्यावरण, बढ़ते वायु प्रदूषण और अल्ट्रा वायलेट किरणों के बढ़ते प्रभाव की वजह से आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कॉर्निया, पलकों, सिलेरिया और यहां तक कि लेंस पर भी पर्यावरण का असर होता है। बढ़ते तापमान और पर्यावरण के चक्र में आते बदलाव के चलते क्षेत्र में हवा खुशक हो रही है। इस वजह से आंखें में ज्यादा खुशकी आ रही है, जिसके चलते आंसू नहीं बनते या बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वायु प्रदूषण लंबे समय से सांस प्रणाली की समस्याओं का कारण बन रहा है। हाल ही में इसका असर आंखों पर भी नजर आने लगा है। लकड़ी या कोयले जलते समय उसके संपर्क में आने से विकासशील देशों में ट्रोचमा की वजह से आंखों में जखम हो जाते हैं। उम्रभर संक्रमण होने से पलकों के अंदर जखम हो सकते हैं, जिससे पलकों अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और कॉर्निया से रगड़ खाने लगती हैं और

क्षति पहुंचा देती हैं, जिससे नजर भी चली जाती है। ओजोन की क्षति होने से अल्ट्रावायलेट किरणों का असर बढ़ रहा है, जिससे कॉर्टिकल कैटेरेक्ट का खतरा बढ़ जाता है। सूर्य की खतरनाक किरणों के लगातार संपर्क में आने से आंखों के लेंस के प्रोटीन की व्यवस्था बिगड़ सकती है और लेन्ज एपिथीलियम को क्षति पहुंच सकता है, जिससे लेंस धुंधला हो जाता है। वह कहते हैं कि हैट पहनने से यूवी का असर 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है। यूवी प्रोटेक्शन वाला साधारण धूप का चश्मा लगाने से 100 प्रतिशत तक सुरक्षा हो सकती है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि पूरे समाज को आंखों को होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में जागरूक होना चाहिए। भारतीय लोगों में पहले ही विटामिन-डी की कमी है, इसलिए इन सावधानियों पर गौर करना बेहद जरूरी है।



सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए करें ये काम

ठंड के दिनों में बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह कारण हार्ट अटैक का सबसे बड़ा बोनस बन सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये उपाय करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके लिए सर्दियों में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए आक्सिजन युक्त ब्लड की आवश्यकता होती है। जिसकी पूर्ति आपकी बॉडी में मौजूद 60 हजार खून की नलियों के जरिए हार्ट करता है। लेकिन जब आपका सर्कुलेशन खराब होता है, तो ब्लड प्रेशर धीमा या अवरुद्ध हो जाता है। जिससे आपके शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और वे सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। खराब सर्कुलेशन की वजह से तब होती है जब नसों में गंदा फेट जमा हो जाता है, खून का थक्का बनने लगता है या खून की नसें सिकुड़ने लगती हैं। वैसे तो ये सभी कारण आपकी मेडिकल कंडीशन या खराब जीवनशैली का परिणाम होते हैं। लेकिन ठंड के दिनों में आमतौर पर नसें सिकुड़ने लगती हैं। जो कुछ मामलों में स्ट्रोक या

हार्ट अटैक का कारण भी हो सकती है। इसलिए खराब सर्कुलेशन के लक्षण दिखते ही इसमें सुधार के उपायों को करना फायदेमंद साबित हो सकता है।

खराब ब्लड सर्कुलेशन के लक्षण

- चलने से मांसपेशियों में दर्द
- त्वचा में झुनझुनी
- त्वचा का रंग पीला या नीला
- उंगलियों का टंडा पड़ना
- छाती में दर्द
- नसों में सूजन

धूम्रपान से करें परहेज

सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और धुआं रहित तंबाकू में निकोटिन मौजूद होता है। जो आपकी खून की नसों की दीवारों को हानि पहुंचाता है और आपके खून को इतना गाढ़ा कर देता है कि वह अच्छी तरह बह नहीं पाता है। ऐसे में यदि आप धूम्रपान करते हैं, तो छोड़ दें।

ब्लड प्रेशर को रखें कंट्रोल

हाई ब्लड प्रेशर धमनियों की अंदरूनी परत की



रात की डाइट में शामिल करें ये स्नैक्स

अधिकतर लोग समझते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी खाना ही काफी होता है। अगर बिजनी लाइफ के चलते या स्टूडेंट्स द्वारा रात देर रात तक जागकर पढ़ते रहने से खाने की क्रेविंग होने लगती है जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं। इस समस्या से बचने के लिए कुछ ऐसे स्नैक्स का सेवन जरूर करना चाहिए, जो खाने की क्रेविंग को कम करें और आपको हेल्दी रखें। स्नैक्स ना सिर्फ बॉडी में इंधन को रोकते हैं साथ ही साथ वजन को भी कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही हेल्दी स्नैक्स जिन्हें आप रात की डाइट में शामिल कर सकते हैं।

वेजिटेबल ऑमलेट

वेजिटेबल ऑमलेट कई प्रकार की सब्जियों से बनाता है जो बॉडी को फाइबर, प्रोटीन और कई प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है। ये रात के वक्त आपकी भूख को कम करते हैं और नींद दिलाने में मदद करते हैं।

दलिया

दलिया में फाइबर होता है जिससे भूख कम लगती है। फाइबर से शरीर का वजन ठीक रहता है और इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा, अच्छी नींद के लिए दलिया खाना फायदेमंद होता है।

नट्स और फल

वैसे तो हम नट्स और फलों को किसी भी वक्त खा सकते हैं क्योंकि यह सेहत के लिए हेल्दी ही होते हैं। इनमें फाइबर, फॉस्फोरस और विटामिन-सी भरपूर मात्रा में होते हैं। इनका रात को सेवन करने से नींद अच्छी आती है और भूख भी कम लगती है।

बादाम

अगर आप नियमित रूप से बादाम खाते हैं तो आप कई पुरानी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। बादाम दिल से जुड़ी बीमारियों से भी बचाता है। बादाम में मोनोअनसैचुरेटेड फेट, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए रात को बादाम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है।

मखाना

अगर आपको हर 2-3 घंटे बाद भूख लगती है तो अपनी डाइट में मखानों को शामिल करें क्योंकि इसमें कम वसा होती है जिसे खाने से न तो फेट बढ़ती और न ही खाने की क्रेविंग रहती है।

कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आहार से वसा ब्लड प्रेशर में प्रवेश करते हैं, तो वे क्षतिग्रस्त धमनियों में जमा होने लगते हैं। जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा होने लगती है।

बॉडी को हाइड्रेट रखें

खून लगभग आधा पानी से बना होता है। इसलिए आपको इसे बचाने योग्य बनाए रखने के लिए हाइड्रेट रहने की जरूरत है। एक दिन में 8 गिलास पानी का लक्ष्य रखें। यदि आप व्यायाम करते हैं, तो अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें।

खूब खाएं प्लांट बेस्ड फूड

ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने के लिए हेल्दी फूड का सेवन बहुत जरूरी होता है। ऐसे में बहुत सारे फल और सब्जियां खाएं। संतुष्ट वसा से दूर रहें जो लाल मांस, चिकन, पनीर और अन्य एनिमल बेस्ड फूड में पाया जाता है। इसके साथ ही ज्यादा नमक के सेवन से बचें। यह आपके हेल्दी वेट को बनाए रखने और आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के साथ आपकी धमनियों को साफ रखता है।

नहाने के लिए इस्तेमाल करें गर्म पानी

हालांकि गर्म पानी से बाथ ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने का एक अस्थायी उपाय है, लेकिन स्नान आपके सर्कुलेशन को किंक-स्टार्ट करने का एक शानदार तरीका है। गर्म पानी आपकी धमनियों और नसों को थोड़ा चौड़ा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा गर्म पानी या चाय भी आपकी नसों को खोलने का काम करती है।

डिस्को सॉन्ग पर थिरकती नजर आई शालिनी पासी, इंप्लुएंसर दर्शन संग गाना हो रहा है वायरल

इस साल नेटपिलवस के रियालिटी शो फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइल्स को काफी पसंद किया गया। इस शो में कई बॉलीवुड से जुड़ी सेलिब्रिटी और स्टार वाइफ शामिल हुई थीं लेकिन दिल्ली की सोशललाइट शालिनी पासी सबसे ज्यादा खबरों में बनी हुई हैं। शो में कही गई उनकी बातें, स्टाइल, लाइफस्टाइल सभी कुछ वायरल हो गया। वह सोशल मीडिया की नई स्टार बन चुकी हैं। अब एक बार फिर शालिनी पासी ने दर्शकों को चौंका दिया है, वह इंप्लुएंसर दर्शन के साथ एक डिस्को सॉन्ग के कारण में चर्चा में आ गई हैं।

शालिनी के वायरल डायलॉग पर बना गाना
नेटपिलवस प्लेटफॉर्म पर ही शालिनी पासी का गाना रिलीज हुआ है। इसकी कुछ झलक, शालिनी के इंस्टाग्राम पेज पर भी नजर आई। उन्होंने इस गाने का वीडियो शेयर किया है। यह गाना इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बोल, शालिनी पासी के वायरल डायलॉग पर हैं। कुछ महीनों से शालिनी के फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइल्स में कही गई बातें, सोशल मीडिया पर वायरल

हैं, जैसे 'मैं टेशन नहीं लेती हूँ क्योंकि इससे मेरी स्किल पर बुरा असर पड़ता है।' और भी कई शालिनी की बातों पर सोशल मीडिया पर खूब रीलस बनी हैं। दर्शन की बात करें तो वह भी इंस्टाग्राम पर इंग्लिश सॉन्ग को अपने ही अलग स्टाइल में गाते हैं, यह गाने गाते हुए वह फनी लगती हैं। लेकिन दर्शन की सोशल मीडिया पर काफी फैन फॉलोइंग है। अब शालिनी पासी के साथ वह गाना गाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही घंटों में इस गाने पर 4 लाख से अधिक व्यूज इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं। साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स इसे खूब लाइक भी कर रहे हैं।

बिग बॉस 18 में भी दिखाई

कुछ समय पहले शालिनी पासी 'बिग बॉस 18' के प्रतियोगियों से मिलने 'बिग बॉस' हाउस में गई थीं। एक दिन गुजरने के बाद वह बिग बॉस हाउस से बाहर आ गई थीं। इस एक्सपीरियंस को शालिनी ने यूनीक बताया था। पब्लिक डिमांड पर फिर से बिग बॉस 18 में शालिनी पासी नजर आईं। इस बार वह सलमान खान और शो के प्रतियोगियों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए 'बिग बॉस 18' का हिस्सा बनीं।

बनाना चाहती हैं एक खास शो

शालिनी पासी सिर्फ एक सोशललाइट और सोशल मीडिया इंप्लुएंसर के तौर ही काम नहीं करना चाहती हैं। कुछ समय पहले शालिनी ने बताया है कि वह ऐसा शो बनाना चाहती हैं जो भारतीय संस्कृति को दिखाएगा। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि लोग कहते हैं कि ऐसे शो को देखने के लिए कम ही दर्शक मिलेंगे, लेकिन वह भारत को, अपनी संस्कृति को और महिलाओं की शक्ति दिखाने के लिए तैयार हैं।



फिल्म डकैत से क्यों बाहर हुई श्रुति हासन

कुछ दिन पहले ही अभिनेता अद्वितीय शेष की आने वाली तेलुगु फिल्म डकैत के निर्माताओं ने घोषणा की थी कि मृगाल टाकर मुख्य भूमिका निभाएंगी। मृगाल फिल्म में अभिनेत्री श्रुति हासन की जगह ले रही हैं, जिन्हें पहले फिल्म लॉन्च होने पर मुख्य भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। कई लोगों का मानना है कि श्रुति हासन ने इस प्रोजेक्ट को इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि वह अपने शेड्यूल में फिट नहीं हो पा रही थीं। वहीं, अब अभिनेत्री के फिल्म से बाहर निकलने का नया कारण सामने आया है। फिल्म को लेकर ताजा खबर है कि तारीखों का टकराव श्रुति के बाहर निकलने का कारण नहीं था। इस बारे में नई जानकारी सामने आई है। बताया गया कि श्रुति हासन ने पिछले साल फिल्म का टीजर शूट किया था और उसके बाद श्रुति की तारीखें बार-बार आगे बढ़ाई गईं। दूसरा कलाकार रिफ्ट में बहुत ज्यादा शामिल था। श्रुति अपने अभिनय के नए पहलू को दिखाने में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन वह सह-कलाकार की अत्यधिक भागीदारी से सहज नहीं थी, इसलिए वह प्रोजेक्ट से बाहर हो गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले कहा गया कि श्रुति ने क्रिएटिव मतभेदों के कारण फिल्म छोड़ दी। कथित तौर पर उन्हें सेट पर असुविधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने यह निर्णय लिया। अन्य कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन्होंने डेट वलेश के कारण डकैत को छोड़ दिया।

मिर्जापुर फिल्म को लेकर उत्साहित हैं श्वेता त्रिपाठी

श्वेता त्रिपाठी ने मिर्जापुर में अपने गोलू के किरदार से दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। अभिनेत्री को लोगों ने ओटीटी एक्ट्रेस का भी टैग दिया है। श्वेता अपने दो फेमस शो मिर्जापुर फिल्म और ये काली काली आंखें को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इस साल अभिनेत्री को कई उपलब्धि मिली हैं, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हैं। अब इसके साथ ही श्वेता ने मिर्जापुर फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है।

स्क्रीन के साथ एक साक्षात्कार में श्वेता ने मिर्जापुर फिल्म को लेकर अपना उत्साह साझा है। श्वेता ने कहा, मिर्जापुर फिल्म का पहले सीजन से कोई भी लेना-देना नहीं है। मुन्ना भैया यानी कि दिवेंदु शर्मा भी इसका एक हिस्सा हैं। यह उस समय पर आधारित है, जब मुन्ना भैया जिंदा थे और शायद रिवाटि भी जिंदा थीं। अभी तक हमें निर्माताओं की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आया है।

सीरीज से ज्यादा अच्छी होगी फिल्म
श्वेता ने आगे कहा, जहाँ तक मुझे लगता है, यह फिल्म पावर पैड होने वाली है। इसमें किरदारों का अलग ही स्वेज देखने को मिलेगा। वेब सीरीज से ज्यादा दर्शक इस फिल्म को एंजॉय करने वाले हैं। मुझे बस निर्माताओं के कॉल आने का इंतजार है। क्योंकि मुझे पता है कि फिल्म की रिफ्ट दिल दहला देने वाली होगी। पुनीत कृष्णा, मिर्जापुर के पहले और दूसरे सीजन के लेखक हैं, वह मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक हैं।

अभिनेत्री हैं उत्साहित

अभिनेत्री ने आगे यह भी बताया कि यह फिल्म 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है क्योंकि रिफ्ट अभी भी लिखी जा रही है। फिल्म वेब शो से एकदम अलग होने वाली है। मिर्जापुर फिल्म में कोई भी कंटेंट वेब सीरीज का नहीं लिया जाएगा। यह फिल्म दर्शकों के उत्साह के साथ जरूर नया करेगा। मुझे भी फिल्म की शूटिंग का बेहद इंतजार है।

फैंस हैं उत्साहित

श्वेता त्रिपाठी ने कबूल किया कि वह यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि मिर्जापुर और ये काली काली आंखें दोनों में उनके किरदारों के लिए क्या रखा गया है। फैंस भी अभिनेत्री को एक बार फिर स्क्रीन पर देखने के लिए उत्सुक हैं।

ओरी के हाथ लगी भंसाली की फिल्म, विशिष्ट भूमिका में दिखेंगी दीपिका पादुकोण

संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म की कास्ट अब हर दिन के साथ और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कोशल जैसे बड़े सितारों पहले से ही मुख्य भूमिका में हैं। अब इस कास्ट में एक और दिलचस्प नाम जुड़ गया है। सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। अक्सर वह सेलेब्स के साथ फोटो विलक कराते हुए नजर आते हैं। अब ताजा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वह भंसाली की फिल्म का हिस्सा बनेंगे।

दीपिका का होगा कैमियो

दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में एक कैमियो रोल में नजर आएंगी, हालांकि उनके किरदार के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। दीपिका और भंसाली का एक साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने गोलियों की रासलीला राम-लीला,



फिल्म में ओरी एक समलैंगिक पात्र का किरदार निभाएंगे, जो आलिया के सबसे करीबी दोस्त होंगे। आलिया फिल्म में एक कैबरे डांसर के रूप में नजर आएंगी। इस किरदार के लिए आलिया ने काफी तैयारियां की हैं। वह फिल्म में अपने नए अवतार से दर्शकों पर फिर से जादू चलाने की पूरी कोशिश में हैं। फिल्म में रणबीर कपूर और विकी कोशल भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारी की भूमिका में होंगे।

बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी चर्चित फिल्मों में एक साथ काम किया है। फिल्म के निर्माता इसे 20 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी में जोर-शोर से जुटे हुए हैं।



शाहरुख खान की 'किंग' डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद

बॉलीवुड के किंग खान अपनी फिल्म 'किंग' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पठान, जवान और डंकी के बाद शाहरुख खान के फैंस को उनकी अगली फिल्म किंग का बेसब्री से इंतजार है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की शूटिंग मार्च 2025 से शुरू होगी। काफी लंबे समय से चर्चा थी कि शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' को सुजॉय घोष डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने जा रहे हैं। इन्टरनेट यूनिवर्स की फिल्म पठान को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म से शाहरुख खान की बॉलीवुड में शानदार वापसी हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। फिल्म 'किंग' पूरी तरह से एक्शन फिल्म होगी। फिल्म की शूटिंग की तैयारी पिछले छह महीने से चल रही है। इस फिल्म में शाहरुख खान, बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे, वहीं फिल्म में अभिषेक बच्चन विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म किंग पर काम करना शुरू कर दिया है और पिछले 6 महीनों से वो इतकी रिफ्ट पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग दुनिया के अलग-अलग देशों में की जाएगी। जिसके लिए सिद्धार्थ आनंद रेकी कर रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद इन दिनों फिल्म के एक्शन सीन्स को डिजाइन करने में और लोकेशन को फाइनल करने में लगे हुए हैं। इस फिल्म का निर्माण रेड विलीज एंटरटेनमेंट और माफिलवस के बैनर तले किया जा रहा है। इस फिल्म को सुजॉय घोष ने सिद्धार्थ आनंद, सुरेश नायर और सागर पंड्या के साथ मिलकर लिखा है। वहीं, फिल्म के डायलॉग अब्बास टायरवाला ने लिखे हैं।



नाँटी और वल्गार कॉमिडी के बीच का फर्क पता है

अगर मैं राइटर नहीं होता तो शायद क्रिकेटर होता कॉमिडी से लेकर सीरियस जॉनर में फिल्म लिखने और बनाने वाले डायरेक्टर राज शांडिल्य हमेशा से ही कुछ अलग करते रहे हैं। उनके कई सारे काम की वजह से ही फैंस के बीच वो मशहूर हो गए। हाल ही में अपनी निजी जिंदगी से लेकर करियर और फिल्मों साफर के बारे में उन्होंने बात की है। कॉमिडी को गंभीर विषय मानने वाले लेखक और निर्देशक राज शांडिल्य ने हमेशा अपनी फिल्मों से एक खास संदेश देने के साथ दर्शकों को गुदगुदाया है। फिर चाहे 'जनहित में जारी हो' या 'विकी-विद्या का वो वाला विडियो'। लिखते वक्त वह फेमिली ऑडियंस का पूरा खयाल रखते हैं क्योंकि उन्हें नाँटी और वल्गार कॉमिडी के बीच का फर्क बड़े अच्छे से पता है।

वैलेंज जैसे शो किए। तब टीवी पर ही कॉमिडी होती थी। हमें फेमिली ऑडियंस का खयाल रखना पड़ता था। अब सोशल मीडिया में आप गाली देकर भी कॉमिडी कर सकते हो। नाँटी और वल्गार कॉमिडी में बड़ा फर्क है। मैंने हमेशा इसका ध्यान रखा है। पिछले 15-20 साल में जो किया, वो आज भी चल रहा है। कॉमिडी हमेशा से गंभीर विषय रहा है। कई इसे मजाक में लेते हैं पर लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। **नकली हंसी तो ना हंसी**
मेरे हिसाब से हर दिन हंसने-हंसाने वाला होना चाहिए। किसी के चेहरे पर हंसी का मतलब ही त्योहार है। अगर कोई हंस रहा तो उससे बड़ा खुशी का पल कोई नहीं होता है। लोग सुबह-सुबह योग करते वक्त नकली हंसी हंसते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप आधे घंटे का एक शो रख लो, चुटकुले सुन लो, यूट्यूब पर कॉमिडी देख लो पर नकली हंसी तो ना हंसी। अगर हंसी अंदर से आएगी और उसमें सच्चाई होगी तो आपका ही फायदा होगा।

इल्म को फिल्म में ले आना मेरी कला
मैंने विकी-विद्या का वो वाला विडियो में साइड कैरेक्टर को बहुत मजबूत रखा। वे सब किरदार किसी ना किसी की जिंदगी से जुड़े मिलेंगे आपको। इसमें जब अर्चना पूरन सिंह को मफलर बांधे, मुंह में मसाला दबाए और सबसे ज्यादा टंड लगने वाली मां का किरदार दिया और जब वो गेटअप में आई तो कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। दरअसल, ऐसी महिलाएं मेरे मोहल्ले में थीं। सेट पर जब प्रोड्यूसर आए तो वह उनको पहचान ही नहीं पाए। मैंने टीकूजी के किरदार में जो एक आंख बंद दिखाई है, वैसा भी इंसान देखा है। मैं जब लिख रहा था, तभी दिमाग में टीकूजी का खयाल आ गया। इन सब किरदारों से मैं कहीं ना कहीं मिला हूँ। मैंने ऐसा इम्पेक्टर भी देखा, जो पाइल्स की वजह से बस खड़ा ही रहता था। कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्मी हैं। मैं बता दूँ कि इसमें कुछ फिल्मी नहीं है। जो चीज आपके जेहन में है, जो चीज आप सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो हुई है, तभी दिमाग में दौड़ी है, वरना कभी नहीं आती। उस इल्म को फिल्म में ले आना मेरी कला है। मेरा काम ऑब्जर्व करना है और उसी के हिसाब से लिखना या डायरेक्ट करना है।

हूँ। फिर उसे कैरी करना एक्टर का काम है। ड्रीम गर्ल में मैंने आयुष्मान खुराना से खुलकर एक्टिंग करवाई। अब जब कुछ लिखता हूँ तो जेहन में रहता है कि किसके लिए लिख रहा हूँ। मल्लिका शेरवत को ध्यान में रखकर ही मैंने उनके लिए रोल लिखा और उनको फोन कर बताया कि विजय राज के साथ आपको जोड़ी बनाई है। ऐसा नहीं होता कि मैंने लिख दिया और फिर किरदार दूँद रहा हूँ। इसके लिए इंतजार भी करता हूँ कि जब समय होगा, तभी करेंगे पर तय लोगों के साथ ही करेंगे। **फटाफट लिखने वाला राइटर बन गया**
मैंने टीवी बहुत किया है। झारसी से जब मुंबई गया तो देखा कि सब तो लिख रहे तो मैं क्या लिखूंगा। फिर सोचा कि मैं जल्दी लिखूंगा। आज फटाफट डिलिवरी वाला वक्त है और यह बात मैं 20 साल पहले समझ गया था। जो एक हफ्ते में देने को कहता था, मैं वही एक दिन में लिखकर दे देता था। मैं इंडस्ट्री में फटाफट लिखने वाला राइटर बन गया। मैं नाना पाटेकर, अनिल कपूर, नसीर साहब, परेश रावल जैसे बड़े स्टार्स का दरिया पार करके यहां तक पहुंचा हूँ। 'वेलकम बैक' में नाना पाटेकर ने मेरी लिखी एक लाइन तक नहीं बदलवाई थी क्योंकि उनके डायलॉग्स उसी तरीके से लिखे थे, जिस तरह से वो बोलते हैं। मैं अगर मिथुन, गोविंदा, शाहरुख या सलमान खान के लिए लिखूंगा तो उन्हीं की तरह होगा। राइटर का यही तो काम है। उसको पता होता है कि क्या किस पर नहीं लिखना है और यह अनुभव से आता है।



दिव्य-भव्य-डिजिटल
महाकुम्भ 2025

पुण्य फले, महाकुम्भ चलें कुम्भ सहायक

महाकुम्भ-2025 के लिए आपका AI-सक्षम व्यक्तिगत डिजिटल मार्गदर्शक

कुम्भ सहायक की विशेषताएं



हिंदी, अंग्रेजी एवं 9 अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध



वाट्सऐप एवं महाकुम्भ वेबसाइट/ऐप पर उपलब्ध



बोलकर एवं लिखकर सवाल पूछने की क्षमता



श्रद्धालुओं के लिए व्यक्तिगत फोटो स्मृति चिन्ह उपलब्ध



आस-पास की सुविधाओं हेतु गूगल मैप एकीकरण



पीडीएफ एवं चित्रों से सुसज्जित मीडिया गैलरी

एक क्लिक पर पाएं सम्पूर्ण जानकारी



कुम्भ इतिहास



आध्यात्मिक गुरु



यात्रा एवं आवास



टूर पैकेज



मुख्य आकर्षण



प्रमुख कार्यक्रम



नागरिक सुविधाएं



कुम्भ सहायक चैटबॉट हेतु
QR कोड स्कैन करें



कुम्भ सहायक
वाट्सऐप नं. 8887847135
पर 'नमस्ते' भेजें

कुम्भ चैटबॉट लिंक chatbot.kumbh.up.gov.in